



INDIAN INSTITUTE
OF TECHNOLOGY
PALAKKAD



Annual Accounts 2021-2022

Audit Certificate for

2021-22

Annual Accounts



IIT PALAKKAD

Indian Institute of Technology Palakkad
Palakkad- 678 557



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, चेन्नई⁺
Office of the Principal Director of Audit (Central), Chennai
शाखा कार्यालय, कोच्ची
Branch Office - Kochi
गोल्डन जूबिली रोड, कलूर, कोच्ची - 682017
Golden Jubilee Road, Kaloor, Kochi - 682 017



No. CE/III/7- 6/ SAR IIT P/2022-23/ 31

October 2022

सेवा में /To

भारत सरकार के सचिव /The Secretary to Government of India,
शिक्षा मंत्रालय /Ministry of Education,
शास्त्री भवन/Sastri Bhavan,
नई दिल्ली /New Delhi – 110 001.

महोदय/Sir,

विषय : 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, पालक्काड़ की लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

Sub: Separate Audit Report on the accounts of IIT, Palakkad for the year ended 31 March 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, पालक्काड़ की लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखाओं सहित इसके साथ अग्रेषित है।

Separate Audit Report on the accounts of the IIT, Palakkad for the year ended 31 March 2022 together with the accounts is forwarded herewith.

पत्र के साथ अनुलग्नकों की प्राप्ति की पावती कृपया दें।

Receipt of the letter with enclosures may please be acknowledged.

This issues with the approval of Principal Director of Audit (Central), Chennai.

भवदीय/Yours faithfully,

Sd/-

उप निदेशक (डी टी) II
Dy. Director (DT) II

अनुलग्नक/Encl: पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं प्रमाणित लेखे
Separate Audit Report and certified accounts.

प्रतिलिपि अग्रेषित /Copy forwarded to:

The Director, IIT, Palakkad, with copy of Separate Audit Report and Accounts for the year ended 31 March 2022 for necessary action. One copy of Annual Report for 2021-22 as presented in Parliament may also be forwarded.



उप निदेशक (डी टी)॥
Dy. Director (DT) II

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR
GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF INDIAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, PALAKKAD FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022**

We have audited the attached Balance Sheet of Indian Institute of Technology, Palakkad as at 31 March 2022, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 23(2) of the Institutes of Technology Act, 1961. These financial statements are the responsibility of the Institute's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency –cum – performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports /CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Education, Government of India.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Indian Institute of Technology, Palakkad as required under Section 23(1) of Institutes of Technology Act, 1961 in so far as it appears from our examination of such books; and

(iv) We further report that:

A. GENERAL

A.1. Provision for leave encashment without actuarial valuation

The provision for leave encashment (which is the only retirement benefit) was not made on the basis of actuarial valuation which is against the Accounting Standard 15 issued by ICAI and formats of accounts issued by Ministry of Education. In the absence of actuarial valuation audit was unable to assess the sufficiency of provision of ₹ 3.34 crore made in the accounts for leave encashment.

This issue was pointed out in the previous Audit Report also.

A.2. Designated/Earmarked/ Endowment Fund –Non representation of investment of Funds

As per the formats of financial statements for Central Higher Educational Institutions issued by the Ministry of Education, representation of closing balance of Designated/Earmarked/ Endowment Fund, as (i) Cash and Bank balance (ii) Investments and (iii) Interest accrued but not due, should be disclosed in the Schedule 2-Designated/Earmarked/ Endowment Fund. However such representation was not made in the Schedule 2 of the Annual Accounts of IIT Palakkad.

A.3. Term deposit Accounts ₹ 48.51 crore

Term deposit Accounts of ₹ 48.51 crore include irrevocable Letter of Credit opened in favour of one Supplier towards Supply, Installation, Testing and Commissioning of one equipment costing 6,85,000 SGD (₹ 4,50,21,331). This item was not disclosed in the Notes to Accounts (Schedule-24) regarding Letter of Credit established by the Bank on behalf of the Institution and outstanding as on 31.03.2022 under Contingent Liabilities as prescribed by the Ministry of Education in its Formats of Financial Statements for Central Higher Educational Institutions.

B. Grant-in Aid

The Institute received a grant-in-aid of ₹ 428.33 crore from Ministry of Education, Government of India during 2021-22. Out of the total grant of ₹ 514.76 crore (including the unspent grant of ₹ 86.43 crore carried forward from previous year) the Institute utilized an amount of ₹ 392.85 crore and refunded ₹ 7.62 crore, leaving a balance amount of ₹ 114.29 crore as unspent grant-in-aid as on 31.3.2022.

C. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of IIT, Palakkad through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Indian Institute of Technology, Palakkad as at 31 March 2022; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C& AG of India



13.10.2022

Principal Director of Audit (C), Chennai

Place: Chennai

Date: October 2022

Annexure I

1. Adequacy of Internal Audit system

The Internal Audit wing is not yet established in the Institute. Though one chartered accountant firm is engaged for auditing high valued transactions, no periodical inspection reports issued to the Institute.

2. Adequacy of Internal control system

Internal control system is inadequate on account of the following.

Though the Institute maintained a fixed asset register in Form GFR-22, the register is not authenticated by any responsible officer of the Institute. The register is not page numbered and not having any serial number for items entered in it.

3. System of Physical verification of Fixed Assets

Physical verification of fixed assets has been conducted during 15.07.2021 to 05.10.2021.

4. System of Physical Verification of Inventory:

The Institute has no Inventory of stock. Hence there is no physical verification of inventories also.

5. Regularity in Payment of Statutory Dues :

The Institute is regular in payment of statutory dues and no dues are pending.



Deputy Director(DT)II.

Annual Accounts

2021-22



IIT PALAKKAD

Indian Institute of Technology Palakkad
Palakkad- 678 557

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PALAKKAD
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022

Amount in Rupees

SOURCES OF FUNDS	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND	1	5,25,72,07,634.47	2,05,42,55,494.73
DESIGNATED/ EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	2	1,87,54,716.48	1,34,57,625.52
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	3	1,39,24,65,238.21	1,05,01,93,370.48
SECURED LOANS	3D	-	1,60,01,39,298.68
TOTAL		6,66,84,27,589.16	4,71,80,45,789.41

APPLICATION OF FUNDS	Schedule	Current Year	Previous Year
FIXED ASSETS	4		
Tangible Assets		87,47,32,636.98	75,64,11,933.76
Intangible Assets		3,61,23,197.35	2,62,35,831.57
Capital Works-In-Progress		3,93,93,39,763.10	2,43,55,16,048.81
INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	5		
Long Term		36,84,300.00	31,85,176.39
Short Term			
INVESTMENTS - OTHERS	6		
CURRENT ASSETS	7	69,66,37,841.65	78,58,14,870.16
LOANS, ADVANCES & DEPOSITS	8	1,11,79,09,850.08	71,08,81,928.72
TOTAL		6,66,84,27,589.16	4,71,80,45,789.41
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	23		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS	24		

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ,PALAKKAD INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31st MARCH 2022				
Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year	
INCOME				
Academic Receipts	9	12,48,08,136.42	8,96,86,353.00	
Grants / Subsidies	10	62,25,16,202.96	54,62,97,389.50	
Income from investments	11	51,50,723.00	44,85,023.20	
Interest earned	12	12,84,045.00	26,27,827.00	
Other Income	13	66,12,502.98	38,54,311.00	
Prior Period Income	14	2,75,675.00	2,93,200.00	
TOTAL (A)		76,06,47,285.36	64,72,44,103.70	
EXPENDITURE				
Staff Payments & Benefits (Establishment expenses)	15	27,69,35,777.00	23,87,33,676.00	
Academic Expenses	16	8,79,49,998.00	6,53,01,541.74	
Administrative and General Expenses	17	15,14,74,674.32	12,29,41,031.34	
Transportation Expenses	18	57,46,334.00	64,79,441.00	
Repairs & Maintenance	19	2,38,30,426.00	1,45,14,084.09	
Finance costs	20	10,41,32,796.32	9,60,34,489.34	
Depreciation	4	14,09,15,273.33	11,38,23,448.89	
Other Expenses	21	3,01,75,039.38	92,60,878.42	
Prior Period Expenses	22	5,52,14,223.59	2,622.00	
TOTAL (B)		87,63,74,541.94	66,70,91,212.82	
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-11,57,27,256.58	-1,98,47,109.12	
Transfer to / from Designated Fund				
Building fund				
Others (specify)				
Balance Being Surplus / (Deficit) Carried to Capital Fund		-11,57,27,256.58	-1,98,47,109.12	
Significant Accounting Policies	23			
Contingent Liabilities and Notes to Accounts	24			

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

SCHEDULE - 1 CAPITAL/CORPUS FUND

A) CAPITAL FUND

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year	1,94,89,09,255.40	1,38,49,50,033.30
Less: Contributions towards Overhead Fund		
Add: Grants from UGC, Government of India and State Government to the extent utilized for capital expenditure	1,73,12,35,136.13	34,05,83,683.55
Add: Other Additions (Principal Repayment HEFA Loan)	1,57,47,71,624.32	27,50,00,000.00
Less: Contribution towards Corpus Fund	-3,54,30,437.00	-3,17,77,352.00
Add: Excess of Income over expenditure transferred from the Income & Expenditure Account	-11,57,27,256.58	-1,98,47,109.12
Total	5,10,37,58,322.27	1,94,89,09,255.73
Balance at the year end	5,10,37,58,322.27	1,94,89,09,255.73

B) CORPUS FUND

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year	10,53,46,239.00	7,35,68,887.00
Add: Contributions towards Corpus Fund	3,54,30,437.00	3,17,77,352.00
Add: Interest	1,26,72,636.20	
Balance at the year end	15,34,49,312.20	10,53,46,239.00
TOTAL CAPITAL & CORPUS FUND	5,25,72,07,634.47	2,05,42,55,494.73

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 2 - DESIGNATED/ EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

Particulars	Fund wise Breakup			Amount in Rupees	
	Overhead Fund	Alumni Fund	Endowment Funds	Current Year	Previous Year
A.					
a) Opening balance	87,25,245.00	14,85,561.00	32,46,819.52	1,34,57,625.52	77,32,306.94
b) Additions during the year	65,28,593.00	5,77,563.00		71,06,156.00	59,34,547.00
c) Income from investments made of the funds		1,03,157.00	1,72,225.61	2,75,382.61	1,75,326.73
d) Accrued Interest on investments/Advances				-	
e) Interest on Savings Bank a/c				-	
f) Other additions (Specify nature)				-	
Total (A)	1,52,53,838.00	21,66,281.00	34,19,045.13	2,08,39,164.13	1,38,42,180.67
B.					
Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				-	-
i) Capital Expenditure				-	
ii) Revenue Expenditure	20,69,304.50	15,143.15		20,84,447.65	3,84,555.15
Total (B)	20,69,304.50	15,143.15	-	20,84,447.65	3,84,555.15
Closing balance at the year end (A - B)	1,31,84,533.50	21,51,137.85	34,19,045.13	1,87,54,716.48	1,34,57,625.52
Grand Total		1,87,54,716.48			3,22,12,342.00

SCHEDULE 2A
ENDOWMENT FUNDS

2. Name of the Endowment	Opening Balance		Additions during the Year		Total		Expenditure on the object during the year	Closing Balance		Total (10+11)	
	3 Endowment	4 Accumulated Interest	5 Endowment	6 Interest	7 Endowment (3+5)	8 Accumulated Interest (4+6)		9	10 Endowment		
Prof M C Valsakumar Endowment Fund	30,44,995.28	2,01,824.24		-	1,72,225.61	30,44,995.28	3,74,049.85	-	30,44,995.28	3,74,049.85	34,19,045.13
Total	30,44,995.28	2,01,824.24		-	1,72,225.61	30,44,995.28	3,74,049.85		30,44,995.28	3,74,049.85	34,19,045.13

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 3- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Deposits from staff	49,99,822.00	30,64,500.00
2. Deposits from students	75,02,525.89	1,42,58,687.20
3. Sundry Creditors	75,72,703.20	46,58,726.27
4. Deposit-Others (including EMD, Security Deposit)	31,24,728.50	20,38,255.50
5. Statutory Liabilities (GPF, TDS, WC TAX, CPF, GIS, NPS):		
a) Overdue	0.00	45,59,368.90
b) Others - TDS/GST Payable	8,68,46,156.08	7,57,68,905.78
6. Other Current Liabilities		
a) Salaries	0.00	1,29,66,787.00
b) NPS Payable	0.00	36,15,341.00
c) Receipts against sponsored projects	37,07,755.00	23,74,072.00
d) Receipts against sponsored fellowships & scholarships	1,14,29,15,191.56	86,42,59,141.97
e) Unutilised Grants	1,21,451.00	1,21,451.00
f) Grants in advance	35,67,102.38	19,96,614.38
g) Other funds - Disha Women Empowerment Program	0.00	0.00
h) Other liabilities		
i. Fees refundable to students	0.00	14,986.00
ii .Amount due to State Govt. for the construction of compound wall in permanent campus.	0.00	13,500.00
iii. Provision for LIC Premium	7,30,94,926.00	1,69,63,837.05
iv. Provision for Provident Fund	51,31,317.00	0.00
v. Interest on Grant	4,96,147.00	1,50,349.00
vi. Interest on Project	16,15,038.00	11,88,939.00
vii. IRD Delhi-Unnat Bharath Abhiyan	2,02,449.60	500.00
ix. Other Receipts	19,99,485.00	12,411.40
x. Alumini Donation Payable	0.00	19,99,485.00
xi. Advance from customers	0.00	0.00
xii. Levae Encashment received from previous employer	0.00	0.00
Total (A)	1,34,28,96,798.21	1,01,00,25,858.45
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	3,34,19,074.00	2,08,94,826.00
2. Gratuity	1,61,49,366.00	1,74,86,162.03
3. Superannuation Pension	11,13,429.00	
4 Leave Encashment	6,73,095.00	
5. Trade Warranties/Claims	0.00	
6. Others - Provisions for purchase of fixed assets	0.00	
7. Pension Contribution	0.00	
8. Leave Salary Contribution	0.00	
Total (B)	4,95,68,440.00	4,01,67,512.03
Total (A+ B)	1,39,24,65,238.21	1,05,01,93,370.48

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE - 3 (a) SPONSORED PROJECTS

1 Sr. No.	2 Name of the Project	Opening Balance		5.Receipts/Recoveries during the year	6 Total	7. Expenditure during the year	Amount in Rupees	
		3. Credit	4. Debit				8. Credit	9. Debit
1	2021-066-PHY-MON-DST-SP	17,57,742.00		22,50,227.00	40,07,969.00	16,45,155.00	23,62,814.00	
2	2021-067-CHY-PCP-DST-SP	35,148.00		22,76,869.00	23,12,017.00	22,43,045.00	68,972.00	
3	2021-095-ME-KKP-DST-SP	-		22,00,000.00	22,00,000.00	6,60,000.00	15,40,000.00	
4	Dr.Athira P Inspire Faculty	3,54,911.00		-	3,54,911.00	3,54,911.00	-	
5	Dr.Jayakumar Balakrishna Inspire Faculty Award	8,49,887.00		-	8,49,887.00	-	8,49,887.00	
6	Dr.Lakshmi Narasimhan-Inspire Faculty Award	6,95,418.00		7,00,000.00	13,95,418.00	7,1,382.00	13,24,036.00	
7	Dr.Lakshmi Shankar Inspire Faculty Grant	9,44,593.00		-	9,44,593.00	9,44,593.00	-	
8	2018-010-PY-SOM-DST-SP	10,14,891.83		7,53,018.00	17,67,909.83	6,99,695.00	10,68,214.83	
9	2019-007-CE-PRG-SERB FMEQ-SP	224,897.47		3,00,000.00	5,24,897.47	4,70,482.00	54,415.47	
10	2019-008-CY-SHS-SERBESEQ-SP	5,58,706.60		5,60,953.00	11,19,659.60	8,32,268.00	2,87,391.60	
11	2019-009-EE-MRP-SERBEFECRA-SP	31,93,374.00		2,49,642.00	34,43,016.00	31,29,085.00	3,13,931.00	
12	2019-011-EE-SKD-SERBEFECRA-SP	3,40,854.00		3,10,950.00	6,51,804.00	2,12,544.00	4,39,260.00	
13	2019-013-CE-AMV-SERBCRG-SP	4,12,750.00		7,00,000.00	11,12,750.00	7,24,386.00	3,88,364.00	
14	2019-014-ME-KSG-SERBEFECRA-SP	16,68,816.00		5,14,390.00	21,83,206.00	18,72,124.00	3,11,082.00	
15	2019-015-ME-SKM-SERBCRG-SP	17,17,581.00		5,67,185.00	22,84,766.00	19,67,340.00	3,17,426.00	
16	2019-016-CY-SBS-ECRA-SP	2,91,881.00		5,50,000.00	8,41,881.00	5,42,975.00	2,98,906.00	
17	2019-017-CY-DIJ-DFRL-SP	6,99,919.75		-	6,99,919.75	2,63,145.00	4,36,774.75	
18	2019-020-CSE-ALS-DOS-SP	4,40,000.00		17,332.00	4,57,332.00	1,61,625.00	2,95,707.00	
19	2019-021-EE-SSC-SERB-SP	1,14,548.00		1,40,152.00	2,54,700.00	46,162.00	2,08,538.00	
20	2019-022-ME-DHK-SERB-SP	17,01,868.00		6,50,000.00	23,51,868.00	16,14,316.00	7,37,552.00	
21	2019-023-ME-AFA-SERB-SP	18,36,396.00		1,61,573.00	19,97,969.00	18,14,074.00	1,83,895.00	
22	2019-024-CE-TVM-KPWD-SP	88,249.00		6,30,760.00	7,19,009.00	3,66,766.00	3,52,243.00	
23	2019-025-CE-BKB-NMHS-SP	2,14,000.00		16,270.00	2,30,270.00	59,000.00	1,71,270.00	
24	2019-027-CE-SAS-SERB-SP	6,23,334.00		2,32,000.00	8,55,334.00	5,14,928.00	3,40,406.00	
25	2019-028-CE-SAC-SERB-SP	12,60,083.00		2,68,896.00	15,28,979.00	15,28,979.00	-	
26	2019-029-EE-ARA-SERB-SP	2,03,593.71		3,02,000.00	5,05,593.71	4,30,358.00	75,235.71	
27	2019-030-ME-SAM-SERB-SP	17,62,618.00		2,27,000.00	19,89,618.00	14,21,176.00	5,68,442.00	
28	2019-031-EE-REP-SERB-SP	4,21,734.30		6,64,584.00	10,86,318.30	10,72,362.00	13,956.30	
29	2019-033-CSE-CSL-SERB-SP	5,10,232.00		3,52,170.00	8,62,402.00	8,62,402.00	-	
30	2019-034-CE-SUM-KSCSTE-SP	6,36,888.00		75,821.00	7,12,709.00	4,91,935.00	2,20,774.00	
32	2019-048-CSE-PPK-DST-SP	10,57,990.00		34,383.00	10,92,373.00	1,64,583.00	9,27,790.00	
33	2020-032-EE-VAP-DST-SP	4,03,377.00		11,09,186.00	15,12,563.00	9,27,293.00	5,85,270.00	
34	2020-035-CSE-MKD-SERB-SP	4,22,000.00		3,31,450.00	7,53,450.00	6,36,271.00	1,17,179.00	
35	2020-036-CY-DIJ-SERB-SP	7,82,801.00		67,017.00	8,49,818.00	4,63,229.00	3,86,589.00	
36	2020-037-ME-GAN-SERB-SP	2,00,000.00		-	2,00,000.00	2,00,000.00	-	
37	2020-038-CE-STK-SERB-SP	4,05,754.00		2,44,000.00	6,49,754.00	4,83,813.00	1,65,941.00	
38	2020-039-CSE-DRP-SERB-SP	2,00,000.00		-	2,00,000.00	-	2,00,000.00	
39	2020-044-CY-SHS-FEB-SP	0.23		-	0.23	-	0.23	
40	2020-047-CY-MIP-STARS-SP	54,20,788.00		4,36,000.00	58,56,788.00	20,02,337.00	38,54,451.00	
41	2020-049-EE-MRP-SERB-SP	3,23,871.00		7,984.00	3,31,855.00	2,85,455.00	46,400.00	
42	2020-050-CSE-SAC-SRC-SP	-		2,89,191.00	2,89,191.00	1,960.00	2,87,231.00	
43	2020-051-ME-SKM-CSIR-SP	7,51,833.00		-	7,51,833.00	2,58,102.00	4,93,731.00	
44	2020-052-ME-SKM-MEITY-SP	26,74,248.00		93,603.00	27,67,851.00	4,36,560.00	23,31,291.00	
45	2020-054-CE-BKB-SERB-SP	18,01,780.00		4,27,660.00	22,29,440.00	19,66,410.00	2,63,030.00	
46	2020-056-EE-SUM-SERB-SP	10,25,360.00		-	10,25,360.00	8,43,248.00	1,82,112.00	
47	2020-057-PHY-JKB-SERB-SP	27,78,624.00		2,00,000.00	29,78,624.00	25,15,670.50	4,62,953.50	
48	2020-058-CHY-MIP-SERB-SP	32,39,040.00		1,00,581.00	33,39,621.00	26,43,880.00	6,95,741.00	
49	2020-059-EE-SRV-SERB-SP	18,05,640.00		-	18,05,640.00	16,97,967.00	1,07,673.00	
50	2020-060-PHY-AKP-SERB-SP	15,12,441.00		-	15,12,441.00	10,01,039.00	5,11,402.00	
51	2020-061-CHY-SSM-SERB-SP	16,38,139.00		46,535.00	16,84,674.00	12,43,618.00	4,41,056.00	
52	2020-062-EE-JOF-SERB-SP	5,49,110.00		-	5,49,110.00	3,30,249.00	2,18,861.00	
53	2020-063-CSE-SAD-SERB-SP	9,30,107.00		6,520.00	9,36,627.00	8,62,504.00	74,123.00	
54	2021-064-ME-SAM-NRB-SP	28,34,000.00		4,640.00	28,38,640.00	3,89,640.00	24,49,000.00	
55	2021-065-ME-SAC-DOS-SP	17,95,500.00		3,66,000.00	21,61,500.00	10,26,799.00	11,34,701.00	
56	2021-069-PHY-PBS-DST-SP	-		24,66,820.00	14,34,623.00	10,32,197.00		
57	2021-070-CE-MKM-SERB-SP	16,42,206.00		-	16,42,206.00	3,68,903.00	12,73,303.00	
58	2021-071-CSE-UNC-NSM-SP	21,34,000.00		-	21,34,000.00	3,02,250.00	18,31,750.00	
59	2021-072-PHY-VIV-NSM-SP	45,31,000.00		-	45,31,000.00	1,62,226.00	43,68,774.00	
60	2021-073-CSE-SAB-SERB-SP	16,15,936.00		-	16,15,936.00	6,11,452.00	10,04,484.00	
61	2021-074-EE-ARA-DST-SP	-		38,25,389.00	38,25,389.00	5,36,401.00	32,88,988.00	

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

62	2021-075-EE-VAP-ITT-SP	-		5,00,000.00	5,00,000.00	4,83,007.00	16,993.00
63	2021-077-CE-RJP-CDRI-SP	-		3,68,000.00	3,68,000.00	2,19,452.00	1,48,548.00
64	2021-078-CE-STK-KHRI-SP	-		20,00,000.00	20,00,000.00	1,45,051.00	18,54,949.00
65	2021-079- CE-CVV-NBD-SP	-		3,00,000.00	3,00,000.00	50,000.00	2,50,000.00
66	2021-080-CHY-SUS-CSIR-SP	-		4,56,084.00	4,56,084.00	2,43,666.00	2,12,418.00
67	2021-081-CE-GOC-DST-SP	-		33,30,600.00	33,30,600.00	4,47,095.00	28,83,505.00
68	2021-082-CE-DPV-DST-SP	-		34,60,779.00	34,60,779.00	4,51,834.00	30,08,945.00
69	2021-083-CE-DPV-CCRI-SP	-		9,24,000.00	9,24,000.00	3,86,250.00	5,37,750.00
70	2021-084-CE-DPV-KIIFB-SP	-		50,82,000.00	50,82,000.00	-	50,82,000.00
71	2021-085-CE-SEV-BIC-SP	-		2,16,000.00	2,16,000.00	1,13,419.00	1,02,581.00
72	2021-086-BSE-ARP-DBT-SP	-		24,72,000.00	24,72,000.00	15,73,796.00	8,98,204.00
73	2021-087-CSE-SAB-NRB-SP	-		19,13,609.00	19,13,609.00	4,18,575.00	14,95,034.00
74	2021-088-EE-REP-DOS-SP	-		5,86,250.00	5,86,250.00	4,20,383.00	1,65,867.00
75	2021-089-EE-SKD-DOS-SP	-		3,06,000.00	3,06,000.00	43,260.00	2,62,740.00
76	2021-090-CSE-VIC-NTIHAC-SP	-		5,50,880.00	5,50,880.00	-	5,50,880.00
77	2021-091-PHY-PRB-SERB-SP	-		14,14,331.00	14,14,331.00	90,652.00	13,23,679.00
78	2021-092-ME-PMK-SERB-SP	-		25,33,180.00	25,33,180.00	1,48,090.00	23,85,090.00
79	2021-093-EE-MKJ-SERB-SP	-		22,97,105.00	22,97,105.00	2,09,085.00	20,88,020.00
80	2021-094-ME-BUV-SERB-SP	-		23,59,930.00	23,59,930.00	1,48,170.00	22,11,760.00
81	2022-096-ME-DIS-KINFRA-SP	-		3,22,926.00	3,22,926.00	-	3,22,926.00
82	2022-097-CE-ATP-KINFRA-SP	-		2,42,927.00	2,42,927.00	2,27,478.00	15,449.00
83	2022-098-CHY-DIJ-KINFRA-SP	-		3,52,926.00	3,52,926.00	-	3,52,926.00
84	2022-099-EE-SUD-KINFRA-SP	-		3,22,926.00	3,22,926.00	2,56,827.00	66,099.00
85	2022-100-EE-VIM-SERB-SP	-		24,59,530.00	24,59,530.00	2,02,693.00	22,56,837.00
86	2022-102-BSE-JAB-SERB-SP	-		1,08,300.00	1,08,300.00	-	1,08,300.00
87	2022-103-EE-LNT-SERB-SP	-		2,20,000.00	2,20,000.00	20,000.00	2,00,000.00
88	2022-104-EE-ARA-SERB-SP	-		2,20,000.00	2,20,000.00	20,000.00	2,00,000.00
89	2022-105-PHY-PRN-SERB-SP	-		2,20,000.00	2,20,000.00	20,000.00	2,00,000.00
90	2022-106-CHY-SHS-DST-SP	-		12,50,000.00	12,50,000.00	-	12,50,000.00
91	2022-107-CHY-SHS-DST-SP	-		40,54,496.00	40,54,496.00	-	40,54,496.00
92	Covid 19 Project - Prof. Vinod	2,62,634.00		1,01,968.00	3,64,602.00	3,47,463.00	17,139.00
93	CSR FUND - COVID 19-shapoorji pallonji	3,47,109.00		-	3,47,109.00	-	3,47,109.00
94	Dr. Anupama Binoy - NPDF	8,68,729.00		9,12,800.00	17,81,529.00	8,28,425.00	9,53,104.00
95	Dr.Dupadu Chakradhar "Performance Evaluation of A Cryogenic Coolant" SERB ECR/2017/883	3,97,081.00		-	3,97,081.00	-	3,97,081.00
96	Dr.Jayakumar DST Nano Mission	4,06,232.00		-	4,06,232.00	-	4,06,232.00
97	Dr. Parangama Sarkar DST INSPIRE	13,04,329.00		-	13,04,329.00	51,321.00	12,53,008.00
98	Dr. Praveena G- SERB- ECRA Project	81,429.50		93,893.00	1,75,322.50	-	1,75,322.50
99	Global Initiative For Academic Networks (GIAN)	-		14,20,000.00	14,20,000.00	7,42,069.00	6,77,931.00
100	High- Speed Online Monitoring of Software Applications - Dr. Sandeep Chandran	19,54,360.00		-	19,54,360.00	18,44,378.00	1,09,982.00
101	Kerala State Groundwater Department	-		20,790.00	20,790.00	20,790.00	-
102	KVPY Exam	-		5,00,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00	-
103	MA-JCR-2018-002-SERB-P	1,90,223.00		10,556.00	2,00,779.00	2,00,779.00	-
104	Mechanistic correlation between homeostatic pressure - SERB-ECRA-Dr.bibhuranjan sarangi	60,437.00		-	60,437.00	-	60,437.00
105	STP Water Testing - Builtech Avenue Apartment Owners Association - Dr. Praveena	4,000.00		-	4,000.00	-	4,000.00
106	Xoken:Secure Public Distributre Ledger-Dr.Piyush P Kurur	33,178.00		-	33,178.00	-	33,178.00
107	Cochin Shipyard Limited - Covackathon	-		15,00,000.00	15,00,000.00	15,00,000.00	-
108	CSR GSOCOE Fund - Techin	-		1,40,00,000.00	1,40,00,000.00	1,15,87,000.00	24,13,000.00
109	Sponsorship Project-Swaroop Sahoo	37,904.00		-	37,904.00	-	37,904.00
110	Sponsorship Workshop -PWD-KIIFB- Tom V Mathew	10,800.00		-	10,800.00	-	10,800.00
111	CRYSTAL PROGRAM-KSCSTE	-		1,20,000.00	1,20,000.00	-	1,20,000.00
112	2022-006-GIAN-BKB	-		13,559.27	13,559.27	-	13,559.27
113	2022-007-GIAN-SAB	-		5,084.66	5,084.66	-	5,084.66
114	AICTE Training & Learning Academy Programme	-		1,86,000.00	1,86,000.00	93,000.00	93,000.00
115	HPC Shiksha Fund - Dr Sandeep Chandran	-		3,91,101.26	3,91,101.26	-	3,91,101.26
116	Project No: 2021-001-DSTNSM-SAC	27,60,000.00		-	27,60,000.00	9,28,803.00	18,31,197.00
117	SPCL Project	-		15,08,770.00	15,08,770.00	4,84,295.00	10,24,475.00
		7,57,68,905.39	-	8,73,58,052.19	16,31,26,957.58	7,62,80,801.50	8,68,46,156.08

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE - 3 (b) SPONSORED FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS

Sl No. 1	2 Name of Sponsor	Opening Balance As On 01.04.2021		Transactions During the Year		Closing Balance As On 31.03.2022	
		3 CR	4 DR	5 CR	6 DR	7 CR	8 DR
1	A novel class of functionally controlled macromolecules with tunable properties for material and biomedical applications Dr mintu Porel-Ramanujam Fellowship	6,17,536.00		7,76,676.00	8,85,433.00	5,08,779.00	
2	Inspire Fellowship-Ardra A	1,44,000.00		5,02,000.00	4,64,489.00	1,81,511.00	
3	Inspire Fellowship-Atin Gayen	30,862.00		4,40,000.00	4,50,862.00	20,000.00	
4	UGC JRF Fellowship-Soumik Dey	36,441.00		4,21,760.00	3,76,469.00	81,732.00	
5	Prime Minister Research Fellowship	15,06,452.00		56,58,871.00	42,95,323.00	28,70,000.00	
6	DBT RA Fellowship - Dr Anupama Binoy	38,781.00			38,781.00	-	
7	CSIR Contingency - Anna Sebastian	-		20,000.00		20,000.00	
8	CSIR Contingency - Jiju Mammen	-		20,000.00		20,000.00	
9	CSIR Contingency - Revathy S	-		20,000.00	14,267.00	5,733.00	
	Total	23,74,072.00	0.00	78,59,307.00	65,25,624.00	37,07,755.00	0.00

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 3(c) UNUTILISED GRANTS FROM UGC, GOVERNMENT OF INDIA AND STATE GOVERNMENTS

	Current Year	Previous Year
A. Plan grants: Government of India		
Balance B/F	86,42,59,141.97	32,19,86,280.02
Add: Receipts during the year	4,28,33,48,810.00	1,70,41,53,935.00
Total (a)	5,14,76,07,951.97	2,02,61,40,215.02
Less: Utilized for Revenue Expenditure	62,25,16,202.96	54,62,97,389.50
Less: Utilized for Capital expenditure	1,73,12,35,136.13	34,05,83,683.55
Less: Utilized for HEFA Principal Repayment	1,57,47,71,624.32	27,50,00,000.00
Less: Refund to GoI	7,61,69,797.00	
Total (b)	4,00,46,92,760.41	1,16,18,81,073.05
Unutilized carried forward (a-b)	1,14,29,15,191.56	86,42,59,141.97
B. UGC grants: Plan		
Balance B/F		
Receipts during the year		
Total (c)		
Less Refunds		
Less: Utilized for Revenue Expenditure		
Less: Utilized for Capital expenditure		
Total (d)		
Unutilized carried forward (c-d)		

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

C. UGC Grants Non Plan		
Balance B/F		
Receipts during the year		
	Total (e)	
Less Refunds		
Less: Utilized for Revenue Expenditure		
Less: Utilized for Capital expenditure		
	Total (f)	
Unutilized carried forward (e-f)		
 D. Grants from State Govt.		
Balance B/F		
Receipts during the year		
	Total (g)	
Less Refunds		
Less: Utilized for Revenue Expenditure		
Less: Utilized for Capital expenditure		
	Total (h)	
Unutilized carried forward (g-h)		
GrandTotal (A+B+C+D)	1,14,29,15,191.56	86,42,59,141.97

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE - 3D SECURED LOANS

Particulars	Current Year	Previous Year
Term Loan from Higher Education Financing Agency	-	1,60,01,39,298.68
Total	-	1,60,01,39,298.68

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 4 FIXED ASSETS

Sl. No.	Assets Heads	Gross Block				Depreciation for the Year 2021-22				Net Block	Net Block
		Op Balance as on 01.04.2021	Additions	Deductions	Closing Balance as on 31.03.2022	Dep. Opening Balance	Depreciation for the year	Deductions/ Adjustment	Total Depreciation		
1	Land	-			-	-	-	-	-		
2	Site Development	-			-	-	-	-	-		
3	Buildings	11,22,87,508.00	20,40,882.00		11,43,28,390.00	23,56,790.16	22,86,567.80		46,43,357.96	10,96,85,032.04	10,99,30,717.84
4	Roads & Bridges	-			-	-	-	-	-		
5	Tubewells & Water Supply	40,90,645.86			40,90,645.86	1,66,520.62	81,812.92		2,48,333.53	38,42,312.33	39,24,125.24
6	Sewerage & Drainage	-			-	-	-	-	-		
7	Electrical Installation and equipment	1,78,41,892.00	10,31,238.00		1,88,73,130.00	23,94,294.00	9,43,656.50		33,37,950.50	1,55,35,179.50	1,54,47,598.00
8	Plant & Machinery	3,38,15,081.80	31,40,932.00		3,69,56,013.80	80,74,116.87	18,47,800.69		99,21,917.56	2,70,34,096.24	2,57,40,964.93
9	Scientific & Laboratory Equipment	58,68,09,892.84	17,66,73,715.33		76,34,83,608.17	9,99,10,692.35	6,86,53,211.65		16,85,63,904.00	59,49,19,704.17	48,68,99,200.49
10	Office Equipment	1,05,78,011.00	87,66,685.00	8,498.00	1,93,36,198.00	18,68,214.46	14,50,214.85	1,835.00	33,16,594.31	1,60,19,603.70	87,09,796.55
11	Audio Visual Equipment	1,26,01,252.00	1,49,630.00		1,27,50,882.00	46,78,119.90	9,56,316.15		56,34,436.05	71,16,445.95	79,23,132.10
12	Computers & Peripherals	11,41,40,136.00	1,28,13,686.00	72,000.00	12,68,81,822.00	7,66,10,925.40	1,67,61,237.20	41,465.00	9,33,30,697.60	3,35,51,124.40	3,75,29,210.60
13	Furniture, Fixtures & Fittings	6,03,34,006.00	1,33,41,716.00		7,36,75,722.00	1,46,71,181.19	55,25,679.15		2,01,96,860.34	5,34,78,861.66	4,56,62,824.81
14	Vehicles	12,23,802.00	-		12,23,802.00	4,89,520.80	1,22,380.20		6,11,901.00	6,11,901.00	7,34,281.20
15	Lib. Books & Scientific Journals	1,66,96,321.00	7,56,402.00		1,74,52,723.00	33,31,695.40	17,45,272.30		50,76,967.70	1,23,75,755.30	1,33,64,625.60
16	Sport items	7,13,003.00	98,294.00		8,11,297.00	1,67,546.60	81,129.70		2,48,676.30	5,62,620.70	5,45,456.40
17	Small Value Assets Incl. Sports Items	3,55,813.00	-		3,55,813.00	3,55,813.00	-		3,55,813.00	-	-
	Total(A)	97,14,87,364.50	21,88,13,180.33	80,498.00	1,19,02,20,046.83	21,50,75,430.74	10,04,55,279.11	43,300.00	31,54,87,409.85	87,47,32,636.98	75,64,11,933.76
18	Capital Work in Progress (B)	2,43,55,16,048.81	1,58,32,19,429.88	7,93,95,715.59	3,93,93,39,763.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,93,93,39,763.10	2,43,55,16,048.81

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

Sl. No	Intangible Assets	Gross Block				Depreciation for the Year 2021-22				Net Block	Net Block
		Op Balance as on 01.04.2021	Additions	Deductions	Closing Balance as on 31.03.2022	Dep. Opening Balance	Depreciation for the year	Deductions/ Adjustment	Total Depreciation	31.03.2022	31.03.2021
19	Computer Software	4,91,23,885.50	87,41,336.00	-	5,78,65,221.50	3,82,26,301.80	1,18,32,724.40	-	5,00,59,026.20	78,06,195.30	1,08,97,583.70
21	Patents, Know how, Copy rights	6,02,408.00	-	-	6,02,408.00	2,16,570.23	66,934.22	-	2,83,504.45	3,18,903.55	3,85,837.77
22	E-Journal	4,50,76,713.00	4,16,06,024.00	-	8,66,82,737.00	3,01,24,302.90	2,85,60,335.60	-	5,86,84,638.50	2,79,98,098.50	1,49,52,410.10
23	Institute Logo	3,93,600.00	-	-	3,93,600.00	3,93,600.00	-	-	3,93,600.00	-	-
Total(C)		9,51,96,606.50	5,03,47,360.00	0.00	14,55,43,966.50	6,89,60,774.93	4,04,59,994.22	0.00	10,94,20,769.15	3,61,23,197.35	2,62,35,831.57
Grand Total (A+B+C)		3,50,22,00,019.81	1,85,23,79,970.21	7,94,76,213.59	5,27,51,03,776.43	28,40,36,205.67	14,09,15,273.33	43,300.00	42,49,08,179.00	4,85,01,95,597.43	3,21,81,63,814.14

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 4A FIXED ASSETS

Sl. No.	Assets Heads	Gross Block				Depreciation for the Year 2021-22				Net Block	Net Block
		Op Balance as on 01.04.2021	Additions	Deductions	Closing Balance as on 31.03.2022	Dep. Opening Balance	Depreciation for the year	Deductions/ Adjustment	Total Depreciation		
1	Land	-			-	-	-	-	-		
2	Site Development	-			-	-	-	-	-		
3	Buildings	11,22,87,508.00	20,40,882.00		11,43,28,390.00	23,56,790.16	22,86,567.80		46,43,357.96	10,96,85,032.04	10,99,30,717.84
4	Roads & Bridges	-			-	-	-	-	-		
5	Tubewells & Water Supply	40,90,645.86			40,90,645.86	1,66,520.62	81,812.92		2,48,333.53	38,42,312.33	39,24,125.24
6	Sewerage & Drainage	-			-	-	-	-	-		
7	Electrical Installation and equipment	1,78,41,892.00	10,31,238.00		1,88,73,130.00	23,94,294.00	9,43,656.50		33,37,950.50	1,55,35,179.50	1,54,47,598.00
8	Plant & Machinery	3,38,15,081.80	31,40,932.00		3,69,56,013.80	80,74,116.87	18,47,800.69		99,21,917.56	2,70,34,096.24	2,57,40,964.93
9	Scientific & Laboratory Equipment	58,68,09,892.84	17,66,73,715.33		76,34,83,608.17	9,99,10,692.35	6,86,53,211.65		16,85,63,904.00	59,49,19,704.17	48,68,99,200.49
10	Office Equipment	1,05,78,011.00	87,66,685.00	8,498.00	1,93,36,198.00	18,68,214.46	14,50,214.85	1,835.00	33,16,594.31	1,60,19,603.70	87,09,796.55
11	Audio Visual Equipment	1,26,01,252.00	1,49,630.00		1,27,50,882.00	46,78,119.90	9,56,316.15		56,34,436.05	71,16,445.95	79,23,132.10
12	Computers & Peripherals	11,41,40,136.00	1,28,13,686.00	72,000.00	12,68,81,822.00	7,66,10,925.40	1,67,61,237.20	41,465.00	9,33,30,697.60	3,35,51,124.40	3,75,29,210.60
13	Furniture, Fixtures & Fittings	6,03,34,006.00	1,33,41,716.00		7,36,75,722.00	1,46,71,181.19	55,25,679.15		2,01,96,860.34	5,34,78,861.66	4,56,62,824.81
14	Vehicles	12,23,802.00	-		12,23,802.00	4,89,520.80	1,22,380.20		6,11,901.00	6,11,901.00	7,34,281.20
15	Lib. Books & Scientific Journals	1,66,96,321.00	7,56,402.00		1,74,52,723.00	33,31,695.40	17,45,272.30		50,76,967.70	1,23,75,755.30	1,33,64,625.60
16	Sport items	7,13,003.00	98,294.00		8,11,297.00	1,67,546.60	81,129.70		2,48,676.30	5,62,620.70	5,45,456.40
17	Small Value Assets Incl. Sports Items	3,55,813.00	-		3,55,813.00	3,55,813.00	-		3,55,813.00	-	-
	Total(A)	97,14,87,364.50	21,88,13,180.33	80,498.00	1,19,02,20,046.83	21,50,75,430.74	10,04,55,279.11	43,300.00	31,54,87,409.85	87,47,32,636.98	75,64,11,933.76
18	Capital Work in Progress (B)	2,43,55,16,048.81	1,58,32,19,429.88	7,93,95,715.59	3,93,93,39,763.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,93,93,39,763.10	2,43,55,16,048.81

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

Sl. No	Intangible Assets	Gross Block				Depreciation for the Year 2021-22				Net Block	Net Block
		Op Balance as on 01.04.2021	Additions	Deductions	Closing Balance as on 31.03.2022	Dep. Opening Balance	Depreciation for the year	Deductions/ Adjustment	Total Depreciation	31.03.2022	31.03.2021
19	Computer Software	4,91,23,885.50	87,41,336.00	-	5,78,65,221.50	3,82,26,301.80	1,18,32,724.40	-	5,00,59,026.20	78,06,195.30	1,08,97,583.70
21	Patents, Know how, Copy rights	6,02,408.00	-	-	6,02,408.00	2,16,570.23	66,934.22	-	2,83,504.45	3,18,903.55	3,85,837.77
22	E-Journal	4,50,76,713.00	4,16,06,024.00	-	8,66,82,737.00	3,01,24,302.90	2,85,60,335.60	-	5,86,84,638.50	2,79,98,098.50	1,49,52,410.10
23	Institute Logo	3,93,600.00	-	-	3,93,600.00	3,93,600.00	-	-	3,93,600.00	-	-
Total(C)		9,51,96,606.50	5,03,47,360.00	0.00	14,55,43,966.50	6,89,60,774.93	4,04,59,994.22	0.00	10,94,20,769.15	3,61,23,197.35	2,62,35,831.57
Grand Total (A+B+C)		3,50,22,00,019.81	1,85,23,79,970.21	7,94,76,213.59	5,27,51,03,776.43	28,40,36,205.67	14,09,15,273.33	43,300.00	42,49,08,179.00	4,85,01,95,597.43	3,21,81,63,814.14

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 5 : INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

Amount in Rupees		
	Current Year	Previous Year
1 In Central Government Securities	-	-
2 In State Government Securities	-	-
3 Other approved Securities	-	-
4 Shares	-	-
5 Debentures and Bonds	-	-
6 Term Deposits with Banks	36,84,300.00	31,85,176.39
7 Others (to be specified)	-	-
Total	36,84,300.00	31,85,176.39

SCHEDULE 5 (A) INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS (FUND WISE)

Amount in Rupees			
Sl. No.	Funds	Current Year	Previous Year
1	Endowment Fund	30,67,475.00	
2	Alumni Fund	6,16,825.00	
3			
4			
5			
TOTAL		36,84,300.00	

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 6 - INVESTMENTS - OTHERS

	Amount in Rupees	
	Current Year	Previous Year
1. In Central Government Securities		
2. In State Government Securities		
3. Other approved Securities		
4. Shares		
5. Debentures and Bonds		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 7- CURRENT ASSETS

Amount in Rupees

	Current Year	Previous Year
1. Stock:		
a) Stores and Spares		
b) loose Tools		
c) Publications		
d) laboratory chemicals, consumables and glass ware		
e) Building Material		
f) Electrical Material		
g) Stationery		
h) Water supply material		
2. Sundry Debtors:		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others	41,13,095.00	34,85,692.00
3. Cash and Bank Balances		
a) With Scheduled Banks:		
- In Savings/Current Accounts	20,72,27,723.10	14,07,50,365.11
- In term deposit Accounts	48,50,97,023.55	64,14,06,970.50
b) With non-Scheduled Banks:		
- In term deposit Accounts		
- In Savings Accounts		
c) Cash in Hand	-	4,713.00
5. Imprest Account	2,00,000.00	1,67,129.55
6. Post Office- Savings Accounts		
7. Duties and Taxes Receivable		-
	TOTAL	69,66,37,841.65
		78,58,14,870.16

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

ANNEXURE A

I. Savings Bank Accounts	Current Year	Previous Year
1. Hostel Account-6174101000765	5,45,21,159.37	1,13,93,075.57
2. Project Account-6174101000764	9,50,41,291.56	8,00,57,879.89
3. RFCA Account-6174201000020	37,20,796.00	18,30,799.00
4. HDFC Career Deveopment Cell Account-50100246656600	4,13,129.00	4,60,155.00
5. HDFC Fee collection Account-50100244440102	23,93,205.74	8,72,704.74
6. Axis Bank -919010095958004	4,64,313.53	3,91,356.53
7. Canara Bank Alumni Cell-6174101001183	15,25,100.85	6,59,647.85
8. Canara Bank Endowment Fund-6174101001126	61,097.13	59,287.13
9. Canara Bank- I Stem-6174101001295	25,83,905.85	11,01,795.85
10. ICICI -262801000395	4,97,645.00	4,82,018.00
11. Federal Bank - 15240100087514	1,37,506.00	2,48,963.00
12. SBI Guest House Account - 39938270076	3,25,028.06	96,474.06
13. Canara Bank 6174101001452 CEC IIT Pkd	22,80,550.00	34,95,321.00
II. Current Account		
1. SBI Grant Account -35520964533	2,84,31,054.86	3,74,21,562.90
2. SBI I Collect Account-35512802266	72,81,240.05	12,75,931.05
3. Axis Bank-920020009612052	20,000.00	20,000.00
4. Canara Bank HEFA Interest Repayment-6174101001029	64,219.00	44,221.00
5. Canara Bank LC - 6174201000054	3,19,876.90	4,39,508.34
6. Canara Bank Corpus-617421400003	11,65,663.20	1,59,299.20
7. HDFC-50100500380524-GSCOE Account	4,02,096.00	-
8. Canara Bank HEFA Principal Repayment-6174101001028	55,78,845.00	2,40,365.00
9. RBI- Treasury Single Account-10684301001	-	
III. Term Deposit with scheduled Bank		
TOTAL	69,23,24,746.65	78,36,62,760.61

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 8- LOANS, ADVANCES & DEPOSITS

	Current Year	Previous Year
1. Advances to employees: (Non-interest bearing)		
a) Salary		
b) Festival		
c) Medical Advance		
d) Other (CPDA& Temporary Advance)	28,000.00	11,52,497.00
2. Long Term Advances to employees: (Interest bearing)		
a) Vehicle loan		
b) Home loan		
c) Others (to be specified)		
3. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) On Capital Account		
b) To Suppliers	1,90,49,764.04	2,48,96,821.52
c) Others		
i)Advance of Customs Duty Balmer Lawrie & Co.	7,061.00	7,061.00
ii)Central PWD	1,08,88,61,484.00	60,31,80,233.00
iii)Fee Receivable	17,14,038.00	9,86,538.00
iv)RTI Fee Receivable	420.00	582.00
v)Advance recoverable	5,18,155.00	50.00
vi)Advance- IIM Bangalore	2,37,500.00	
4. Prepaid Expenses		
a) Insurance		
b) Other expenses E Journal		
5. Deposits		
a) Telephone		4,52,225.00
b) Lease Rent	22,000.00	22,000.00
c) Electricity	11,76,300.00	11,76,300.00
d) AICTE, if applicable		
e) Others (Gas)	23,450.00	23,450.00
f) Others (with Ahlia International Foundation for Electricity)	9,36,190.00	9,36,190.00
g) Others (with Kerala Water Authority)	6,85,000.00	6,85,000.00
6. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds	2,92,829.00	
b) On Investments-Others	33,50,791.00	
c) On Loans and Advances		
d) Others (TDS receivable)	10,00,868.04	5,56,981.20
7. Other- Current assets receivable from UGC/sponsored projects		
a) Debit balances in Sponsored Projects		
b) Debit balances in Sponsored Fellowships & Scholarships		
c) Grants Receivable MHRD		7,68,00,000.00
d) Other receivables from UGC		
8. Claims Receivable-		
a) Rent Advance/Excess Rent Paid		
b) Advance for Franking Machine	6,000.00	6,000.00
TOTAL	1,11,79,09,850.08	71,08,81,928.72

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 9- ACADEMIC RECEIPTS

	Current Year	Previous Year
FEES FROM STUDENTS		
Academic		
1. Tuition fee	7,08,60,874.00	6,35,54,705.00
2. Admission fee	1,05,900.00	1,07,550.00
3. Registration / Enrollment fee	7,10,300.00	5,76,900.00
4. Library Admission fee		
5. Laboratory fee		
6. Art & Craft fee		
7. Registration fee		
8. Syllabus fee		
9. Other one time fee	1,94,150.00	2,90,400.00
Total (A)	7,18,71,224.00	6,45,29,555.00
Examinations		
1. Admission test fee		
2. Annual Examination fee	11,16,100.00	9,60,900.00
3. Mark sheet, certificate fee	2,19,080.00	1,37,000.00
4. Entrance examination fee		
Total (B)	13,35,180.00	10,97,900.00

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

Other Fees		
1. Identity card fee		
2. Fine/ Miscellaneous fee	1,45,283.00	1,29,703.00
3. Medical fee and Student Medical Insurance	7,58,400.00	6,33,446.00
4. Gymkhana fee	28,43,123.00	22,84,800.00
5. Hostel fee	4,55,56,859.42	1,98,93,648.00
Total(C)	4,93,03,665.42	2,29,41,597.00
Sale of Publications		
1. Sale of Admission forms		
2. Sale of syllabus and Question Paper, etc.		
3. Sale of prospectus including admission forms		
Total (D)		
Other Academic Receipts		
1. Registration fee for workshops, programmes		
2. Registration fees (Academic Staff College)		
3. Student Welfare fees	12,29,000.00	10,10,100.00
4. Electricity & Water Charges	10,69,067.00	1,07,201.00
Total (E)	22,98,067.00	11,17,301.00
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	12,48,08,136.42	8,96,86,353.00

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 10- GRANTS {SUBSIDIES {IRREVOCABLE GRANTS RECEIVED})

Particulars	Plan		Total Plan	Non Plan UGC	Current Year Total	Previous Year Total			
	Govt. of India	UGC							
		Plan	Specific Schemes						
Balance B/F	86,42,59,141.97	-	-	-	86,42,59,141.97	32,19,86,280.02			
Add: Receipts during the year	4,28,33,48,810.00	-	-	-	4,28,33,48,810.00	1,70,41,53,935.00			
Total	5,14,76,07,951.97				5,14,76,07,951.97	2,02,61,40,215.02			
Less: Refund to GOI	7,61,69,797.00	-	-	-	7,61,69,797.00	-			
Balance	5,07,14,38,154.97				5,07,14,38,154.97	2,02,61,40,215.02			
Less: Utilised for Capital expenditure (A)	1,73,12,35,136.13				1,73,12,35,136.13	34,05,83,683.55			
Balance	3,34,02,03,018.84				3,34,02,03,018.84	1,68,55,56,531.47			
Less: utilized for Revenue Expenditure (B)	62,25,16,202.96			-	62,25,16,202.96	54,62,97,389.50			
Less: utilized for HEFA Principal Repayment(C)	1,57,47,71,624.32			-	1,57,47,71,624.32	27,50,00,000.00			
Balance C/F (C)	1,14,29,15,191.56	-	-	-	1,14,29,15,191.56	86,42,59,141.97			

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 11- INCOME FROM INVESTMENTS

Particulars	Amount in Rupees			
	Earmarked I Endowment Funds		Other Investments	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1. Interest				
a. On Government Securities				
b. Other Bonds/Debentures				
2. Interest on Term Deposits			51,50,723.00	44,50,142.95
3. Income Accrued but not due on Term Loan				
4. Interest on Savings Bank Accounts				
5. Others (Alumni Cell)				34,880.25
Total	-	-	51,50,723.00	44,85,023.20
Transferred to Earmarked/Endowment Funds				
Balance	-	-	51,50,723.00	44,85,023.20

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 12:INTEREST EARNED

Particulars	Amount in Rupees	
	Current Year	Previous Year
1. On Savings Accounts with scheduled banks	12,84,045.00	26,27,827.00
2. On Loans		
a.. Employees/Staff		
b.. Others - SB Interest		
3. On Debtors and Other Receivables		
Total	12,84,045.00	26,27,827.00

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 13· OTHER INCOME

- Items of material amounts included in Miscellaneous Income should be separately disclosed.

		Amount in Rupees	
		Current Year	Previous Year
A. Income from Land & Buildings			
1. Hostel Room Rent		24,67,335.00	6,50,360.00
2. License fee		70,653.00	1,01,290.00
3. Hire Charges of Auditorium/Play ground/Convention Centre, etc		3,53,612.68	12,500.00
4. Electricity Charges Recovered			
5. Water charges recovered			
Total		28,91,600.68	7,64,150.00
B. Sale of Institute's publications			
C. Income from holding events			
1. Gross Receipts from annual function/ sports carnival			
Less: Direct expenditure incurred on the annual function/ sports carnival			
2. Gross Receipts from fetes			
Less: Direct expenditure incurred on the fetes			
3. Gross Receipts for educational tours			
Less: Direct expenditure incurred on the tours			
4. Others (Career Development Center)		2,82,939.00	1,99,500.00
Total		2,82,939.00	1,99,500.00

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

D. Others			
1. Income from consultancy			
2. RTI fees		170.00	162.00
3. Income from Royalty			
4. Sale of application form (recruitment)		18,90,087.00	12,62,344.00
5. Misc. receipts (Foreign Exchange Gain)			
6. Profit on Sale/disposal of Assets			
a) Owned assets			
b) Assets received free of cost			
7. Grants/Donations from Institutions, Welfare Bodies and International Organizations			
8. Others (specify)			
Miscellaneous Receipts- Institute Main Account		5,03,825.71	2,62,005.00
Miscellaneous Receipts- Hostel Account			800.00
I Stem Receipts		4,71,012.59	8,39,405.00
CMFF Manufacturing Charges			4,17,627.00
Guest House Income		5,72,868.00	1,08,318.00
Total		34,37,963.30	28,90,661.00
Grand Total (A+B+C+D)		66,12,502.98	38,54,311.00

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 14- PRIOR PERIOD INCOME

Particulars	Amount in Rupees	
	Current Year	Previous Year
1. Academic Receipts		-
2. Income from Investments		-
3. Interest earned		-
4. Other Income / Hostel	2,75,675.00	2,93,200.00
Total	2,75,675.00	2,93,200.00

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 15- STAFF PAYMENTS & BENEFITS (ESTABLISHMENT EXPENSES)

	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Salaries and Wages	16,15,68,581.00		16,15,68,581.00	15,54,25,011.00		15,54,25,011.00
b) Allowances and Bonus	6,75,00,771.00		6,75,00,771.00	4,45,71,029.00		4,45,71,029.00
c) Contribution to Provident Fund			-			-
d) Contribution to Other Fund - NPS	2,83,53,967.00		2,83,53,967.00	2,36,44,908.00		2,36,44,908.00
e) Staff Welfare Expenses			-			-
f) Retirement and Terminal Benefits			-			-
g) LTC facility	26,88,578.00		26,88,578.00	19,62,290.00		19,62,290.00
h) Medical facility			-	7,82,103.00		7,82,103.00
i) Children Education Allowance	7,33,500.00		7,33,500.00	6,77,250.00		6,77,250.00
j) Honorarium	36,77,843.00		36,77,843.00	5,62,575.00		5,62,575.00
k) Alumini Donation			-			-
l) Group Insurance			-	2,53,240.00		2,53,240.00
m) LIC Premium			-			-
n) Medical Fee			-			-
I) Others: (Leave Salary Contribution)	3,78,409.00		3,78,409.00	6,73,095.00		6,73,095.00
: Leave Encashment	1,12,08,120.00		1,12,08,120.00	90,46,409.00		90,46,409.00
: Pension contribution	8,26,008.00		8,26,008.00	11,26,494.00		11,26,494.00
: Joining time Pay			-	9,272.00		9,272.00
Total	27,69,35,777.00		27,69,35,777.00	23,87,33,676.00	-	23,87,33,676.00

SCHEDULE 15 A- EMPLOYEES RETIREMENT AND TERMINAL BENEFITS

	Amount in Rupees			
	Pension	Gratuity	Leave Encashment	Total
Opening Balance as on 01.04.2020				
Addition : Capitalized value of Contributions Received from other Organizations				
Total (a)				
Less: Actual Payment during the Year (b)				
Balance Available on 31.03.2021 c (a-b)				
Provision required on 31.03.2021 as per Actuarial Valuation (d)				
A. Provision to be made in the Current year (d -c)				
B. Contribution to New Pension Scheme				
C. Medical Reimbursement to Retired Employees				
D. Travel to Hometown on Retirement				
E. Deposit Linked Insurance Payment				
Total (A+B+C+D+E)				

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 16- ACADEMIC EXPENSES

Amount in Rupees

	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Laboratory expenses	41,90,134.00		41,90,134.00	45,43,793.52		45,43,793.52
b) Field work/Participation in Conferences(OBT)	3,02,760.00		3,02,760.00			-
c) Expenses on Seminars/Workshops	35,13,969.00		35,13,969.00	9,81,339.02		9,81,339.02
d) Payment to visiting faculty	7,60,000.00		7,60,000.00	3,58,000.00		3,58,000.00
e) Examination			-			-
f) Student Welfare expenses	49,387.00		49,387.00	1,95,704.00		1,95,704.00
g) Admission expenses			-			-
h) Convocation expenses	8,44,136.00		8,44,136.00	2,48,176.00		2,48,176.00
i) Publications			-			-
j) Stipend/means-cum-merit scholarship	7,76,55,486.00		7,76,55,486.00	5,69,04,258.00		5,69,04,258.00
k) Subscription Expenses			-			-
I) Others (specify) :			-			-
i) Medical Insurance and Expenses	64,549.00		64,549.00	10,69,301.00		10,69,301.00
ii) Other Expenses	4,54,493.00		4,54,493.00	6,64,705.20		6,64,705.20
iii) Placement Expenses	1,15,084.00		1,15,084.00	3,36,265.00		3,36,265.00
TOTAL	8,79,49,998.00	-	8,79,49,998.00	6,53,01,541.74	-	6,53,01,541.74

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 17- ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

	Amount in Rupees					
	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
A Infrastructure						
a) Electricity and power	1,58,19,190.00		1,58,19,190.00	1,39,99,484.00		1,39,99,484.00
b) Water charges	65,86,794.00		65,86,794.00	12,70,896.00		12,70,896.00
c) Insurance			-			-
d) Rent, Rates and Taxes (including property tax)	6,41,36,811.00		6,41,36,811.00	5,34,77,341.00		5,34,77,341.00
B Communication			-			
e) Postage and Stationery	46,444.00		46,444.00	1,12,736.90		1,12,736.90
f) Telephone, Fax and Internet Charges	46,61,940.00		46,61,940.00	31,35,309.00		31,35,309.00
C Others			-			
g) Printing and Stationery (consumption)	12,31,125.00		12,31,125.00	8,30,358.00		8,30,358.00
h) Travelling and Conveyance Expenses	10,30,664.00		10,30,664.00	7,14,067.00		7,14,067.00
i) Hospitality	11,17,340.00		11,17,340.00	6,49,165.64		6,49,165.64
j) Auditors Remuneration	5,58,340.00		5,58,340.00	4,54,100.00		4,54,100.00
k) Professional Charges	1,50,000.00		1,50,000.00	50,850.00		50,850.00
I) Advertisement and Publicity	27,85,784.00		27,85,784.00	30,76,280.00		30,76,280.00
m) Magazines & Journals	29,909.00		29,909.00	26,359.00		26,359.00
n) Others (specify) :			-			-
I) Security Services	1,56,78,302.32		1,56,78,302.32	96,75,933.60		96,75,933.60
II) House Keeping Charges	60,86,150.00		60,86,150.00	50,83,479.64		50,83,479.64
III) Operational Expenses paid to IIT Secretariat	11,00,000.00		11,00,000.00	1,00,000.00		1,00,000.00
IV) Other Office Expenses	30,57,641.00		30,57,641.00	27,04,640.48		27,04,640.48
V) Remuneration to contract staff	2,15,04,210.00		2,15,04,210.00	2,15,25,818.74		2,15,25,818.74
VI) Staff Welfare Expense	18,597.00		18,597.00	1,47,130.00		1,47,130.00
VII) Medical Insurance -faculty/staff	12,07,583.00		12,07,583.00	28,80,074.00		28,80,074.00
VIII) Electrical Items/consumables	46,67,850.00		46,67,850.00	30,27,008.34		30,27,008.34
			-			-
TOTAL	15,14,74,674.32		-	15,14,74,674.32		12,29,41,031.34

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 18- TRANSPORTATION EXPENSES

Particulars	Current Year			Previous Year			Amount in Rupees
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total	
1 Vehicles (owned by institution)							
a) Running expenses	1,18,167.00		1,18,167.00	91,598.00		91,598.00	
b) Repairs & maintenance	79,179.00		79,179.00	14,735.00		14,735.00	
c) Insurance expenses	19,050.00		19,050.00	21,151.00		21,151.00	
			-				
2 Vehicles taken on rent/lease			-				
a) Rent/lease expenses							-
3 Vehicle hiring expenses	55,29,938.00		55,29,938.00	63,51,957.00		63,51,957.00	
Total	57,46,334.00	-	57,46,334.00	64,79,441.00	-	64,79,441.00	

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 19- REPAIRS & MAINTENANCE

Amount in Rupees

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Buildings	1,16,14,595.00		1,16,14,595.00	31,47,565.80		31,47,565.80
b) Furniture & Fixtures			-	31,850.00		31,850.00
c) Plant & Machinery	34,63,083.00		34,63,083.00	30,56,169.05		30,56,169.05
d) Electrical Equipment	31,00,600.00		31,00,600.00	1,03,266.00		1,03,266.00
e) Computers			-	2,15,267.27		2,15,267.27
f) Laboratory & Scientific equipment	38,17,615.00		38,17,615.00	64,25,720.97		64,25,720.97
g) Audio Visual equipment			-			-
h) Cleaning Material & Services			-			-
i) Book binding charges			-			-
j) Gardening	12,77,317.00		12,77,317.00	6,56,051.00		6,56,051.00
k) Estate Maintenance			-			-
I) Others	5,57,216.00		5,57,216.00	8,78,194.00		8,78,194.00
Total	2,38,30,426.00	-	2,38,30,426.00	1,45,14,084.09	-	1,45,14,084.09

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 20- FINANCE COSTS

Amount in Rupees

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Bank Charges	57,652.32		57,652.32	32,942.34		32,942.34
b) Others (Specify)			-			-
(i) HEFA upfront fee/ stamp duty			-			-
(ii) HEFA Insurance			-	15,000.00		15,000.00
(iii) HEFA Interest	10,40,75,144.00		10,40,75,144.00	9,59,86,547.00		9,59,86,547.00
Total	10,41,32,796.32	-	10,41,32,796.32	9,60,34,489.34	-	9,60,34,489.34

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE 21- OTHER EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances			-			-
b) Irrecoverable Balances Written- off			-			-
c) Grants/Subsidies to other institutions/organizations			-			-
d) Others (specify) : New Faculty Seed Grant	32,66,045.00		32,66,045.00	22,72,505.00		22,72,505.00
Hostel Expenses	2,65,55,517.06		2,65,55,517.06	69,70,374.43		69,70,374.43
Kadambini Women's Forum	5,000.00		5,000.00	18,000.00		18,000.00
SPICMACAY-Expenses	15,000.00		15,000.00			
2021-068-CE-PRG-IIT-SP - Instiute Assisted	3,18,816.00		3,18,816.00			
Round Off	13.32		13.32			
Loss on Disposal of Assets	14,648.00		14,648.00			-
Total	3,01,75,039.38	-	3,01,75,039.38	92,60,879.43	-	92,60,879.43

SCHEDULE 22:PRIOR PERIOD EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
1 Establishment expenses						
2 Academic expenses						
3 Administrative expenses						
4 Transportation expenses						
5 Repairs & Maintenance						
6 Other expenses						
Miscellaneous			-	2,622.00		2,622.00
Prior period interest on grants	5,52,14,223.59		5,52,14,223.59			
Total	5,52,14,223.59	-	5,52,14,223.59	2,622.00	-	2,622.00

 Sd/-
 Assistant Registrar (F&A)

 Sd/-
 Registrar

 Sd/-
 Director

SCHEDULE 23
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS

The accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the Accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

2.1 Fees from students (except Tuition Fees), Sale of Admission Forms and Interest on Savings Bank account are accounted on cash basis. Tuition Fees collected separately for each semester is accounted on accrual basis.

2.2 Interest on Investments is accounted on accrual basis.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

3.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.

3.2 Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line method, at the following rates:

Tangible Assets:

1. Land	0%
2. Site Development	0%
3. Buildings	2%
4. Roads & Bridges	2%
5. Tube wells & Water supply	2%
6. Sewerage & Drainage	2%
7. Electrical Installation and equipment	5%
8. Plant & Machinery	5%
9. Scientific & Laboratory Equipment	8%
10. Office Equipment	7.5%
11. Audio Visual Equipment	7.5%
12. Computer & Peripherals	20%

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

13. Furniture, Fixtures & Fittings	7.5%
14. Vehicles	10%
15. Lib. Books & Scientific Journals	10%

Intangible Assets (amortization):

1. E-Journals	40%
2. Computer Software	40%
3. Patents and Copyrights	9 years

3.3 Depreciation is provided for the whole year on opening balances as well as additions during the year.

3.4 Assets created out of Earmarked Funds and funds Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in the Institution, are setup by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the Institution. Depreciation is charged at the rates applicable to respective assets.

3.5 Assets, the individual value of each of which is Rs.2000 or less (except Library Books) are treated as Small Value Assets, 100% depreciation is provided in respect of such assets at the time of their acquisition. However, physical accounting & control are continued by the holders of such assets.

3.6 Government of Kerala has handed over 454 acres of land in Pudusseri village of Palakkad district for establishment of the Institute.

4 Intangible Assets: E-Journals and Computer Software are grouped under Intangible Assets.

4.1 Electronic Journals (E-Journals) are separated from Library Books in view of the limited benefit that could be derived from the on-line access provided. E-journals are not in tangible form, but temporarily capitalized and in view of the magnitude of expenditure and the benefit in terms of perpetual knowledge acquired by the Academic and Research Staff; Depreciation is provided in respect of E-journals at a higher rate of 40% as against depreciation of 10% provided in respect of Library Books.

4.2 Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as part from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these is very high. Depreciation is provided in respect of software at a very higher rate of 40% as against depreciation of 20% provided in respect of Computer and Peripherals.

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

5 RETIREMENT BENEFITS

The Institute is following New Pension Scheme which is accounted on accrual basis. Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

6 CORPUS FUND

Corpus Fund of the institute was established in the financial year 2019-20. 50% of the internal revenue will be transferred to Corpus Fund every year and will constitute main source of the fund.

7 GOVERNMENT GRANTS

7.1 Government Grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable from the Grantor.

7.2 To the extent utilized towards capital expenditure, (on accrual basis) government grants are transferred to the Capital Fund.

7.3 Government grants for meeting Revenue Expenditure (on accrual basis) are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

7.4 Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a liability in the Balance Sheet.

7.5 Interest on HEFA Loan is classified as revenue item in accordance with the budget head under which the grant is given to the Institute.

7.6 The grant lapsed due to non utilization is treated as if refund to the Grantor.

8 SPONSORED PROJECTS

8.1 In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions- Current Liabilities-Other Liabilities-Receipts against sponsored projects". As and when expenditure is incurred/advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited.

8.2 The Institution awards fellowships and scholarships, which are accounted as academic expenses.

8.3 Assets created out of sponsored projects will be capitalised in the books of the institute as and when completion certificates are issued by the sponsoring organisations.

9 INCOME TAX

The income of the Institution is exempted from Income Tax under Section 10(23C) of the Income Tax Act. No provision for tax is therefore made in the accounts.

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

SCHEDULE-24

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS:

1 CONTINGENT LIABILITIES:

The management of the institution has not identified any events or transactions where a liability arises for the institution as an outcome of an uncertain future event as on 31.03.2022.

2 CAPITAL COMMITMENTS

2.1 HEFA has sanctioned a Total Loan of Rs. 1217.40 Crore out of which Institute has availed Rs. 212.47 Crore.

2.2 HEFA Loan liability as on 31.03.2022 is Nil.

3 FIXED ASSETS:

3.1 Additions in the year to Fixed Assets in Schedule 4 include Assets purchased out of Plan Funds. The assets have been set up by credit to Capital Fund.

3.2 Fixed Assets as set out in Schedule 4 do not include assets purchased out of funds of sponsored projects, wherever the ownership retained by the sponsors.

3.3 Government of Kerala has handed over 454 acres of land in Pudussery village of Palakkad district for establishment of the Institute.

4 CURRENT ASSETS, LOANS,ADVANCES AND DEPOSITS

In the opinion of the management, the current assets, loans, advances and deposits have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the balance sheet.

5 The details of balances in savings bank accounts, current accounts and fixed deposit accounts with banks are enclosed as attachment A to the schedule of current assets.

6 Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.

7 Schedules 1 to 24 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet at 31st March 2022 and the income and expenditure account for the year ended on that date.

8 Interest on HEFA Loan is classified as revenue item in accordance with the budget allocation head under which grants are received from MHRD.

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PALAKKAD
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

Receipts	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year	Amount in Rupees
I. Opening Balance			I. Expenses			
a) Cash Balance	4,713.00		a) Establishment expenses	28,28,08,667.00	23,19,86,714.00	
b) Bank Balance			b) Academic expenses	8,68,25,501.00	6,56,76,525.74	
I. In Current accounts	3,96,00,887.49	9,11,06,943.19	c) Administrative expenses	15,78,49,837.69	14,37,70,651.85	
II. In Deposit accounts		0.00	d) Transportation expenses	57,46,334.00	64,79,441.00	
III. Savings accounts	10,11,49,477.62	6,12,84,500.69	e) Repairs & Maintenance	2,38,30,426.00	1,45,14,084.09	
IV. Imprest Account	1,67,129.55	1,92,329.00	f) Other expenses	16,52,53,205.58	8,67,96,703.33	
II. Grants Received			II. Payments against earmarked/Endowment Funds	20,69,304.50	3,84,555.15	
a) From Government of India						
I. Grant for Capital Expenditures	2,26,43,00,000.00	83,43,00,000.00				
II. Grant for Revenue Expenditures	2,09,58,48,810.00	80,60,53,955.00				
c) From other sources						
III. Academic Receipts	12,75,86,446.42	8,94,20,890.38	III. Payments against sponsored projects/schemes	7,48,58,594.50	3,90,93,187.56	
IV. Receipts against earmarked/Endowment Funds			Inspire Faculty Grant - Expenses Reimbursed	14,22,207.00	9,81,750.00	
V. Receipts against sponsored projects/schemes			Payment against Consultancy Project			
Research Project	9,33,71,665.19	4,97,76,777.00	IV. Payments against sponsored Fellowships & scholarships	65,25,624.00	23,15,432.00	
Inspire Faculty Grant	7,00,000.00	29,00,000.00	Disha Programme for women Empowerment	0.00	75,000.00	
VI. Receipts against Ramanujam Fellowship	7,76,676.00	7,60,000.00	V. Investments and Deposit made			
VII. Income on Investments from			a) Out of Earmarked/Endowment Funds			
a) Earmarked/ Endowment Funds			b) Out of Own Funds (investment-Others)			
b) Other investments			VI. Term Deposits with Scheduled Banks	8,26,38,290.00	65,52,97,185.55	
			VII. Expenditure on Fixed Asset and Capital Work-in- Progress			
			a) Fixed Assets	18,97,27,626.74	15,38,54,456.90	
			b) Capital Work-in-Progress	2,07,02,37,476.91	1,52,23,54,391.41	

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

VIII. Interest Received on a) Bank Deposits b) Loans and Advances c) Savings Bank Accounts	1,09,62,528.15 12,84,045.00	37,83,722.00 30,07,421.00	VIII. Other Payments including statutory payments a) EMD Paid b) Loan repayment c) Duties & taxes d) Employee Benefit Payments e) Amt paid to Kerala State Govt.	4,21,207.00 1,57,35,98,354.52 9,00,00,000.00	25,21,238.00 27,50,00,000.00
IX. Investments encashed			IX. Refund of Grants	7,61,69,797.00	
X. Term Deposits with scheduled bank encashed	24,97,76,115.00	52,25,91,906.55	X. Deposits and Advances	0.00	
XI. Other Income (Including prior period Income) a) Alumni Fund b) IRD Delhi-Unnat Bharath Abhiyan	66,12,664.98 5,61,919.85 3,45,798.00	41,47,349.00 5,88,738.00 0.00	XI. Other Payments a) Hostel Expenses b) Miscellaneous Payments c) IIT Delhi d) IIM Bangalore		69,70,374.43 1,48,500.00 3,50,000.00
XII. Deposits and Advances a) EMD Received b) Advances and Deposits c) Deposit Refundable	15,07,680.00 0.00 0.00	8,03,983.50 45,00,000.00 0.00	XII. Closing Balance a) Cash Balance b) Bank Balance I. In Current accounts II. In Deposit accounts III. Savings accounts IV. Imprest account	0.00 4,32,62,995.01 16,39,64,728.09 2,00,000.00	4,713.00 3,96,00,887.49 10,11,49,477.62 1,67,129.55
XIII. Miscellaneous Receipts including statutory receipts a. Consultancy Project b. Contribution towards leave encashment from previous employment	18,42,687.09 0.00	1,39,57,784.00 13,08,574.00			
XIV. Any Other Receipts a) Misc. Receipts- Hostel Account b) Misc. Receipts- Institute c) Overhead Fund d) HEFA Loan	6,16,137.20 65,28,593.00 41,03,703.00	2,66,190.40 53,46,309.00 94,33,95,045.96			
TOTAL	5,00,76,47,676.54	3,43,94,92,398.67		5,00,76,47,676.54	3,43,94,92,398.67

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ,PALAKKAD
NEW PENSION SCHEME

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

(Amount in Rs.)

Receipts	Amount	Payments	Amount
To Opening Balance Bank	36,15,341.00	Investment	-
NPS Tier Account	4,86,06,906.00	Payment to NSDL	5,22,22,247.00
Own Subscription	-		
University Contribution	-		
Interest received on Investment	-		
Interest on Savings Bank Account	-	Closing Balance Bank	-
Investment Encashed	-		
	5,22,22,247.00		5,22,22,247.00

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

Expenditure	Amount	Income	Amount
Interest Credited to Subscribers Accounts		Interest Earned on Investments	-
Bank Charges	-	Less: Interest Accrued but not due	-
Excess of Income over Expenditure	-		
	-		-

BALANCE SHEET OF NPS AS ON 31.03.2022

Liabilities	Amount	Assets	Amount
NPS Tier - I Account		NPS Tier - I Account	
Opening Balance	-	Subscription and contribution due	-
Add: Interest Credited	-	Investment	-
Less: Transferred to NSDL	-	Interest Accrued but not due	-
Excess of Income over Expenditure	-	Balance at Bank	-
Amount Payable to NSDL	-		-
	-		-

Sd/-
Assistant Registrar (F&A)

Sd/-
Registrar

Sd/-
Director

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र
2021-22 के लिए

वर्षिक लेखे



IIT PALAKKAD

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड
पालक्काड—678557



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय, चेन्नै
Office of the Principal Director of Audit (Central), Chennai
शाखा कार्यालय, कोच्ची
Branch Office- Kochi
गोल्डन जुबली रोड, कलूर, कोच्ची-682017
Golden Jubilee Road, Kaloor, Kochi-682 017

संख्या सीई / 111/7-6 / एसएआर आईआईटी पी / 2022-23 / 31

अक्टूबर 2022

सेवा में,

भारत सरकार के सचिव
शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001

महोदय,

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, पालक्काड़ की लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, पालक्काड़ की लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखाओं सहित इसके साथ अग्रेषित है।

पत्र के साथ अनुलग्नकों की प्राप्ति की पावती कृपया दें।

इसे प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (केन्द्रीय) चेन्नई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

उप निदेशक (डीटी) II

अनुलग्नक: पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं प्रमाणित लेखे

प्रतिलिपि अग्रेषित:

निदेशक, आईआईटी, पालक्काड़ को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखों की प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु। पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का हिंदी संस्करण यथाशीघ्र शाखा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाए। संसद में प्रस्तुत 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति भी प्रेषित कर दी जाए।

उप निदेशक (डीटी) II

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड के लेखों के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड की 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार संलग्न तुलन पत्र और प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की हैं। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है।

2. इस अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वोच्च लेखा प्रक्रियाओं के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखा मानकों और प्रकटन मानदंडों इत्यादि के संबंध में केवल लेखा उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विचार शामिल हैं। कानून, नियमावली और विनियम (संपदा और नियामक) के अनुसरण के संबंध में वित्तीय लेन—देन और सक्षमता—सह—निष्पादन पहलू इत्यादि पर लेखापरीक्षा व्याख्या अलग से निरीक्षण रिपोर्टें/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह आवश्यक होता है कि हम इस बात पर समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं कि क्या वित्तीय विवरण प्रस्तुत गलत विवरणों से मुक्त है। किसी ऑडिट में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटन के समर्थनकारी साक्ष्यों की जांच करना शामिल होता है। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन भी शामिल होते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारे विचारों के लिए समुचित आधार का प्रावधान है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

- (i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी;
- (ii) इस रिपोर्ट में तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे तथा प्राप्ति और भुगतान लेखे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।
- (iii) हमारे विचार से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23(1) लेखों और अन्य संगत रिकार्डों की उचित पुस्तक जहां तक वह इनकी जांच से लगती है, यथापेक्षित अनुसर रखी गई है।
- (iv) हम आगे यह सूचित करते हैं कि :

क. सामान्य

क.१ प्रोद्भूत मूल्यांकन के बगैर अवकाश नगदीकरण का प्रावधान

अवकाश नगदीकरण के लाभ के प्रावधान जो कि केवल सेवानिवृत्त लाभ है, को प्रोद्भूत मूल्यांकन आधार पर लिया गया था जो कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखन मानक 15 और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी लेखा प्रपत्रों के विरुद्ध है। प्रोद्भूत मूल्यांकन के अभाव में ऑडिट अवकाश नकदीकरण के लिए लेखों में किए गए 3.34 करोड़ रुपए के प्रावधान का सक्षमता से मूल्यांकन नहीं कर पाया।

इस विषय को ऑडिट रिपोर्ट में भी उठाया गया है।

क.२ निर्दिष्ट/चिह्नित/वृत्तिदान निधि – निधियों के निवेश का गैर प्रतिनिधित्व

शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए वित्तिय विवरणों के प्रपत्र के अनुसार (i) नगद एवं बैंक बकाया (ii) निवेश और (iii) प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज के रूप में निर्दिष्ट/चिह्नित/वृत्तिदान निधि के अंतिम बकाया का प्रतिनिधित्व अनुसूची 2–निर्दिष्ट/चिह्नित/वृत्तिदान निधि में दर्शाया जाना चाहिए। तथापि आईआईटी पालककड़ के वार्षिक लेखों की अनुसूची 2 में इसे नहीं दर्शाया गया है।

क.३ सावधि जमा खाता 48.51 करोड़ रुपए

6,85,000 एसजीडी (4,50,21,331 रुपए) की लागत के एक उपकरण की आपूर्ति, स्थापना परीक्षण पर एक आपूर्ति के पक्ष में खोले गए गैर वसूली योग्य ऋण पत्र को शामिल करते हुए 48.51 करोड़ रुपए का सावधि जमा खाता खोला गया। इसे संस्थान द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित केन्द्रीय उच्च शैक्षिक संस्थाओं के लिए वित्तिय विवरण प्रपत्र के अनुसार आकस्मिक देनदानी के तहत 31.3.2022 के अनुसार बकाए के रूप में बैंक द्वारा स्थापित ऋण पत्र के संबंध में लेखा टिप्पणी अनुसूची 24 में नहीं दर्शाया गया है।

ख. सहायता अनुदान

संस्थान ने 2021–22 के दौरान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से 428.33 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त किया। जिसमें से 514.76 करोड़ रुपए के कुल अनुदान (पिछले वर्ष से आगे ले जाए गए अव्ययित अनुदान के 86.43 करोड़ रुपए सहित) में से संस्थान ने वर्ष के दौरान 392.85 करोड़ रुपए खर्च किए जिससे 31.03.2022 के अनुसार अव्ययित सहायता अनुदान के रूप में 114.29 करोड़ रुपए की राशि शेष बच गई।

ग. प्रबंधन पत्र

सुधारात्मक/संशाधन की कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पालककाड़ के ध्यान में ऑडिट रिपोर्ट में लाई गयी खामियों को शामिल नहीं किया गया है।

(v) पिछले अनुच्छेद में हमारी व्याख्या के अधीन हम यह सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे लेखों की पुस्तिका के अनुसरण में हैं।

(vi) हमारे विचार में और हमारी सूचना और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखों संबंधी टिप्पणी के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध—। में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन उक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सही विचार प्रस्तुत करते हैं:

क. जहां तक वे 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालककाड़ के मामलों के तुलन पत्र से संबद्ध हैं और

ख. जहां तक वे इस तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए अतिरिक्त राशि के आय और व्यय लेखों से संबद्ध हैं।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (केन्द्रीय) चैन्स

स्थान : चैन्स

दिनांक : अक्टूबर 2022

अनुबंध ।

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की सक्षमता:

संस्थान में अब तक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की स्थापना नहीं की गयी है। हालांकि, उच्च मूल्य के लेनदेन की लेखापरीक्षा के लिए एक सनदी लेखाकार फर्म नियुक्त की गयी है, संस्थान को आवधिक निरीक्षण रिपोर्ट जारी नहीं की गयी है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सक्षमता:

निम्नलिखित को देखते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रर्याप्त नहीं है:

हालांकि संस्थान द्वारा प्रपत्र जीएफआर-32 में एक अचल संपत्ति रजिस्टर रखा गया है, यह रजिस्टर संस्थान के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। रजिस्टर के पेज पर कमांक नहीं डाले गए हैं और इसमें प्रविष्ट की गई मदों की क्रम संख्या नहीं है।

3. संपत्ति की वास्तविक जांच की प्रणाली:

15.7.2021 से 5.10.2021 के दौरान अचल संपत्तियों की वास्तविक जांच की गयी है।

4. संपत्ति सूची की वास्तविक जांच की प्रणाली:

संस्थान द्वारा स्टॉक की संपत्ति सूची नहीं रखी जा रही है। अतः संपत्ति सूची की वास्तविका जांच नहीं की गयी है।

5. सांविधिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता:

संस्थान सांविधिक देनदारियों के भुगतान में नियमित रहा है और कोई देनदारी बकाया नहीं है।

वार्षिक लेखा

2021-22



IIT PALAKKAD

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड

पालक्काड—678557

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालककाड

31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र

राशि रूपये में

निधियों का स्रोत:	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कोरपस / पूँजीगत निधि	1	5,25,72,07,634.47	2,05,42,55,494.73
निर्दिष्ट / चिह्नित / वृत्तिदान निधियां	2	1,87,54,716.48	1,34,57,625.52
चालू देनदारियां और प्रावधान	3	1,39,24,65,238.21	1,05,01,93,370.48
आरक्षित ऋण	3D	-	1,60,01,39,298.68
कुल		6,66,84,27,589.16	4,71,80,45,789.41
निधियों का उपयोग	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अचल संपत्तियां	4		
वस्तविक संपत्तियां		87,47,32,636.98	75,64,11,933.76
अवास्तविक संपत्तियां		3,61,23,197.35	2,62,35,831.57
पूँजीगत प्रगतिरत कार्य		3,93,93,39,763.10	2,43,55,16,048.81
चिह्नित / वृत्तिदान निधियों से निवेश	5	36,84,300.00	31,85,176.39
दीर्घावधि			
लघु अवधि			
निवेश—अन्य	6	-	-
चालू सम्पत्तियां	7	69,66,37,841.65	78,58,14,870.16
ऋण, अग्रिम और जमा	8	1,11,79,09,850.08	71,08,81,928.72
कुल		6,66,84,27,589.16	4,71,80,45,789.41
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	23		
आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणी	24		

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालककाड			
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा			
विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
शैक्षिक प्राप्तियां	9	12,48,08,136.42	8,96,86,353.00
अनुदान / इमदाद	10	62,25,16,202.96	54,62,97,389.50
निवेश से आय	11	51,50,723.00	44,85,023.20
अर्जित ब्याज	12	12,84,045.00	26,27,827.00
अन्य आय	13	66,12,502.98	38,54,311.00
पूर्व अवधि आय	14	2,75,675.00	2,93,200.00
कुल (क)		76,06,47,285.36	64,72,44,103.70
व्यय			
कर्मचारी भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	15	27,69,35,777.00	23,87,33,676.00
शैक्षिक व्यय	16	8,79,49,998.00	6,53,01,541.74
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	15,14,74,674.32	12,29,41,031.34
परिवहन व्यय	18	57,46,334.00	64,79,441.00
मरम्मत और रख—रखाव	19	2,38,30,426.00	1,45,14,084.09
वत लागत	20	10,41,32,796.32	9,60,34,489.34
अवमूल्यन	4	14,09,15,273.33	11,38,23,448.89
अन्य व्यय	21	3,01,75,039.38	92,60,878.42
पूर्व अवधि व्यय	22	5,52,14,223.59	2,622.00
कुल-(ख)		87,63,74,541.94	66,70,91,212.82
व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय का बकाया(क-ख)		-11,57,27,256.58	-1,98,47,109.12
निर्दिष्ट निधि को/से अंतरित			
भवन निधि			
अन्य (उल्लेख करें)			
पूंजीगत निधि में ले जाया गया अतिरिक्त/घाटे का बकाया		-11,57,27,256.58	-1,98,47,109.12
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	23		
आकस्मिक देनदारी और लेखा टिप्पणी	24		

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

तुलन—पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची—1: पूंजीगत / कोरपस निधि

(क) पूंजीगत निधि

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में बकाया	1,94,89,09,255.40	1,38,49,50,033.30
घटा: ओवरहेड निधि में अंशदान		
जमा: यूजीसी, भारत सरकार और राज्य सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त सीमा तक अनुदान	1,73,12,35,136.13	34,05,83,683.55
जमा: अन्य जमा (हेफा ऋण का मूलधन चुकाना)	1,57,47,71,624.32	27,50,00,000.00
घटा: कोरपस निधि में अंशदान	-3,54,30,437.00	-3,17,77,352.00
जमा: आय और व्यय खाते में गलती से डेबिट किया गया संकाय बीज अनुदान	-11,57,27,256.58	-1,98,47,109.12
कुल	5,10,37,58,322.27	1,94,89,09,255.73
वर्ष के अंत में बकाया	5,10,37,58,322.27	1,94,89,09,255.73

(ख) कोरपस निधि

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में बकाया	10,53,46,239.00	7,35,68,887.00
जमा: कोरपस निधि में अंशदान	3,54,30,437.00	3,17,77,352.00
जमा: ब्याज	1,26,72,636.20	
वर्ष के अंत में बकाया	15,34,49,312.20	10,53,46,239.00
कुल पूंजीगत और कोरपस निधि	5,25,72,07,634.47	2,05,42,55,494.73

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 2 – निर्दिष्ट/चिह्नित/वृत्तिदान निधियां

विवरण	राशि रूपये में				
	निधिवार विवरण	ओवरहेड निधि	पूर्व छात्र निधि	वृत्तिदान निधि	कुल
क.				चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) आरंभिक शेष	87,25,245.00	14,85,561.00	32,46,819.52	1,34,57,625.52	77,32,306.94
ख) वर्ष के दौरान जमा	65,28,593.00	5,77,563.00		71,06,156.00	59,34,547.00
ग) निधियों से निवेश से आय		1,03,157.00	1,72,225.61	2,75,382.61	1,75,326.73
घ) निवेश / अग्रिम पर अर्जित ब्याज					
ङ) बचत बैंक खाते पर ब्याज					
च) अन्य जमा (उल्लेख करें)					
कुल-(क)	1,52,53,838.00	21,66,281.00	34,19,045.13	2,08,39,164.13	1,38,42,180.67
B.					
निधियों के उददेश्य के लिए उपयोग/व्यय					
i) पंजीगत व्यय					
ii) राजस्व व्यय	20,69,304.50	15,143.15		20,84,447.65	3,84,555.15
कुल-(ख)	20,69,304.50	15,143.15	-	20,84,447.65	3,84,555.15
वर्ष के अंत में अंतिम शेष (क-ख)	1,31,84,533.50	21,51,137.85	34,19,045.13	1,87,54,716.48	1,34,57,625.52
सकल योग		1,87,54,716.48			3,22,12,342.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची: 2 क

वृत्तिदान निधियां

2. वृत्तिदान का नाम	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जमा		कुल		वर्ष के दौरान लक्ष्य पर व्यय		अंतिम शेष		कुल (10+11)
	3 वृत्तिदान	4 संचयी ब्याज	5 वृत्तिदान	6 ब्याज	7 वृत्तिदान (3+5)	8 संचयी ब्याज (4+6)	9	10 वृत्तिदान	11 संचयी ब्याज 3		
प्रो. एम सी वल्साकुमार वृत्तिदान निधि	30,44,995.28	2,01,824.24	-	1,72,225.61	30,44,995.28	3,74,049.85	-	30,44,995.28	3,74,049.85	34,19,045.13	
कुल	30,44,995.28	2,01,824.24	-	1,72,225.61	30,44,995.28	3,74,049.85		30,44,995.28	3,74,049.85	34,19,045.13	

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची – 3 चालू देनदारियां और प्रावधान

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू देनदारियां		
1. स्टाफ से जमा	49,99,822.00	30,64,500.00
2. छात्रों से जमा		
3. विविध लेनदान		
क) वस्तुओं और सेवाओं के लिए	75,02,525.89	1,42,58,687.20
ख) अन्य – परामर्श सेवाएं	75,72,703.20	46,58,726.27
4. जमा–अन्य (ईएमडी, सुरक्षा जमा सहित)	31,24,728.50	20,38,255.50
5. वैधानिक देनदारियां (जीपीएफ, टीडीएस, डब्ल्यूसी कर, सीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस):		
क) ओवरड्रयू	0.00	45,59,368.90
ख) अन्य – देय टीडीएस/जीएसटी		
6. अन्य चालू देनदारियां		
क) वेतन	0.00	1,29,66,787.00
ख) एनपीएस भुगतान	0.00	36,15,341.00
ग) प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्ति	8,68,46,156.08	7,57,68,905.78
घ) प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति से प्राप्ति	37,07,755.00	23,74,072.00
ड) अनुप्रयुक्त अनुदान	1,14,29,15,191.56	86,42,59,141.97
च) अग्रिम अनुदान		
छ) अन्य निधियां – दिशा महिला वृत्तिदान कार्यक्रम	1,21,451.00	1,21,451.00
झ) अन्य देनदारियां		
i. छात्रों को वापसी योग्य फीस	35,67,102.38	19,96,614.38
ii. स्थायी परिसर में चारदीवारी के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा देय राशि	0.00	0.00
iii. एलआईसी प्रीमियम के लिए प्रावधान	0.00	14,986.00
iv. भविष्य निधि के लिए प्रावधान	0.00	13,500.00
v. अनुदान पर ब्याज	7,30,94,926.00	1,69,63,837.05
vi. परियोजना पर ब्याज	51,31,317.00	0.00
vii. आईआरडी दिल्ली – उन्नत भारत अभियान	4,96,147.00	1,50,349.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

ix. अन्य प्राप्तियां		16,15,038.00	11,88,939.00
x. देय पूर्व छात्र दान		0.00	500.00
xi. उपभोक्ताओं से अग्रिम		2,02,449.60	12,411.40
xii. पिछले नियोक्ता से प्राप्त अवकाश नगदीकरण		19,99,485.00	19,99,485.00
	कुल (क)	1,34,28,96,798.21	1,01,00,25,858.45
ख. प्रावधान			
1. कर हेतु			
2. ग्रेचुटी			
3. अधिवर्षिता / पैशन			
4. अवकाश नगदीकरण		3,34,19,074.00	2,08,94,826.00
5. ट्रेड वारंटियां / दावे			
6. अन्य – अचल संपत्तियों की खरीद हेतु प्रावधान		1,61,49,366.00	1,74,86,162.03
7. पैशन अंशदान			11,13,429.00
8. अवकाश वेतन अंशदान			6,73,095.00
	कुल (ख)	4,95,68,440.00	4,01,67,512.03
	कुल (क+ख)	1,39,24,65,238.21	1,05,01,93,370.48

ह/-
सहायक कुल सचिव (वित एवं लेखा)

ह/-
कुल सचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची – 3 (क) प्रायोजित परियोजनाएं		राशि रूपये में						
1	2	आरंभिक शेष		5 वर्ष के दौरान प्राप्ति/वसूली	6 कुल	7. वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम शेष	
क्र सं	परियोजना का नाम	3. केडिट	4. डेबिट				8. केडिट	9. डेबिट
1	2021–066—पीएचवाई—एमओएन—डीएसटी—एसपी	17,57,742.00		22,50,227.00		40,07,969.00	16,45,155.00	23,62,814.00
2	2021–067—सीएचवाई—पीसीपी—डीएसटी—एसपी	35,148.00		22,76,869.00		23,12,017.00	22,43,045.00	68,972.00
3	2021–095—एमई—केकपी—डीएसटी—एसपी	-		22,00,000.00		22,00,000.00	6,60,000.00	15,40,000.00
4	डॉ अथिरा पी इंस्पायर फैकल्टी	3,54,911.00		-		3,54,911.00	3,54,911.00	-
5	डॉ. जयकुमार बालकृष्णन इंस्पायर संकाय पुरस्कार	8,49,887.00		-		8,49,887.00	-	8,49,887.00
6	डॉ. लक्ष्मी नरसिम्हन—इंस्पायर संकाय पुरस्कार	6,95,418.00		7,00,000.00		13,95,418.00	71,382.00	13,24,036.00
7	डॉ लक्ष्मी शंकर इंस्पायर संकाय अनुदान	9,44,593.00		-		9,44,593.00	9,44,593.00	-
8	2018–010—पीवाई—सोम—डीएसटी—एसपी	10,14,891.83		7,53,018.00		17,67,909.83	6,99,695.00	10,68,214.83
9	2019–007—सीई—पीआरजी—एसईआरबी ईएमईव्यू—एसपी	2,24,897.47		3,00,000.00		5,24,897.47	4,70,482.00	54,415.47
10	2019–008—सीवाई—एसएचएस—एसईआरबीईएमईव्यू—एसपी	5,58,706.60		5,60,953.00		11,19,659.60	8,32,268.00	2,87,391.60
11	2019–009—ईई—एमआरपी—एसईआरबीईसीआरए—एसपी	31,93,374.00		2,49,642.00		34,43,016.00	31,29,085.00	3,13,931.00
12	2019–011—ईई—एसकेडी—एसईआरबीईसीआरए—एसपी	3,40,854.00		3,10,950.00		6,51,804.00	2,12,544.00	4,39,260.00
13	2019–013—सीई—एमवी—एसईआरबीसीआरजी—एसपी	4,12,750.00		7,00,000.00		11,12,750.00	7,24,386.00	3,88,364.00
14	2019–014—एमई—केएसजी—एसईआरबीईसीआरए—एसपी	16,68,816.00		5,14,390.00		21,83,206.00	18,72,124.00	3,11,082.00
15	2019–015—एमई—एसकेएम—एसईआरबीसीआरजी—एसपी	17,17,581.00		5,67,185.00		22,84,766.00	19,67,340.00	3,17,426.00
16	2019–016—सीवाई—एसबीएस—ईसीआरए—एसपी	2,91,881.00		5,50,000.00		8,41,881.00	5,42,975.00	2,98,906.00
17	2019–017—सीवाई—डीआईजे—डीएफआरएल—एसपी	6,99,919.75		-		6,99,919.75	2,63,145.00	4,36,774.75
18	2019–020—सीएसई—एएलएस—डीओएस—एसपी	4,40,000.00		17,332.00		4,57,332.00	1,61,625.00	2,95,707.00
19	2019–021—ईई—एसएससी—एसईआरबी—एसपी	1,14,548.00		1,40,152.00		2,54,700.00	46,162.00	2,08,538.00
20	2019–022—एमई—डीएचके—एसईआरबी—एसपी	17,01,868.00		6,50,000.00		23,51,868.00	16,14,316.00	7,37,552.00
21	2019–023—एमई—एएफए—एसईआरबी—एसपी	18,36,396.00		1,61,573.00		19,97,969.00	18,14,074.00	1,83,895.00
22	2019–024—सीई—टीवीएम—कपीडब्ल्यूडी—एसपी	88,249.00		6,30,760.00		7,19,009.00	3,66,766.00	3,52,243.00
23	2019–025—सीई—बीकेबी—एनएमएचएस—एसपी	2,14,000.00		16,270.00		2,30,270.00	59,000.00	1,71,270.00
24	2019–027—सीई—एसएएस—एसईआरबी—एसपी	6,23,334.00		2,32,000.00		8,55,334.00	5,14,928.00	3,40,406.00
25	2019–028—सीई—एसएसी—एसईआरबी—एसपी	12,60,083.00		2,68,896.00		15,28,979.00	15,28,979.00	-
26	2019–029—ईई—एआरए—एसईआरबी—एसपी	2,03,593.71		3,02,000.00		5,05,593.71	4,30,358.00	75,235.71
27	2019–030—एमई—एसएएम—एसईआरबी—एसपी	17,62,618.00		2,27,000.00		19,89,618.00	14,21,176.00	5,68,442.00
28	2019–031—ईई—आरईपी—एसईआरबी—एसपी	4,21,734.30		6,64,584.00		10,86,318.30	10,72,362.00	13,956.30

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

29	2019-033-सीएसई-सीएसएल-एसईआरबी-एसपी	5,10,232.00		3,52,170.00		8,62,402.00	8,62,402.00	-
30	2019-034-सीई-एसयूएम-केएससीएसटीई-एसपी	6,36,888.00		75,821.00		7,12,709.00	4,91,935.00	2,20,774.00
32	2019-048-सीएसई-पीपीके-डीएसटी-एसपी	10,57,990.00		34,383.00		10,92,373.00	1,64,583.00	9,27,790.00
33	2020-032-ईई-वीएपी-डीएसटी-एसपी	4,03,377.00		11,09,186.00		15,12,563.00	9,27,293.00	5,85,270.00
34	2020-035-सीएसई-एमकेडी-एसईआरबी-एसपी	4,22,000.00		3,31,450.00		7,53,450.00	6,36,271.00	1,17,179.00
35	2020-036-सीवाई-डीआईजे-एसईआरबी-एसपी	7,82,801.00		67,017.00		8,49,818.00	4,63,229.00	3,86,589.00
36	2020-037-एमई-जीएन-एसईआरबी-एसपी	2,00,000.00		-		2,00,000.00	2,00,000.00	-
37	2020-038-सीई-एसटीके-एसईआरबी-एसपी	4,05,754.00		2,44,000.00		6,49,754.00	4,83,813.00	1,65,941.00
38	2020-039-सीएसई-डीआरपी-एसईआरबी-एसपी	2,00,000.00		-		2,00,000.00	-	2,00,000.00
39	2020-044-सीवाई-एसएचएस-एफईबी-एसपी	0.23		-		0.23	-	0.23
40	2020-047-सीवाई-एमआईपी-स्टास-एसपी	54,20,788.00		4,36,000.00		58,56,788.00	20,02,337.00	38,54,451.00
41	2020-049-ईई-एमआरपी-एसईआरबी-एसपी	3,23,871.00		7,984.00		3,31,855.00	2,85,455.00	46,400.00
42	2020-050-सीएसई-एसएसी-एसआरसी-एसपी	-		2,89,191.00		2,89,191.00	1,960.00	2,87,231.00
43	2020-051-एमई-एसकेएम-सीएसआईआर-एसपी	7,51,833.00		-		7,51,833.00	2,58,102.00	4,93,731.00
44	2020-052-एमई-एसकेएम-एमईआईटीवाई-एसपी	26,74,248.00		93,603.00		27,67,851.00	4,36,560.00	23,31,291.00
45	2020-054-सीई-बीकेबी-एसईआरबी-एसपी	18,01,780.00		4,27,660.00		22,29,440.00	19,66,410.00	2,63,030.00
46	2020-056-ईई-एसयूएम-एसईआरबी-एसपी	10,25,360.00		-		10,25,360.00	8,43,248.00	1,82,112.00
47	2020-057-पीएचवाई-जेकेबी-एसईआरबी-एसपी	27,78,624.00		2,00,000.00		29,78,624.00	25,15,670.50	4,62,953.50
48	2020-058-सीएचवाई-एमआईपी-एसईआरबी-एसपी	32,39,040.00		1,00,581.00		33,39,621.00	26,43,880.00	6,95,741.00
49	2020-059-ईई-एसआरवी-एसईआरबी-एसपी	18,05,640.00		-		18,05,640.00	16,97,967.00	1,07,673.00
50	2020-060-पीएचवाई-एकेपी-एसईआरबी-एसपी	15,12,441.00		-		15,12,441.00	10,01,039.00	5,11,402.00
51	2020-061-सीएचवाई-एसएसएम-एसईआरबी-एसपी	16,38,139.00		46,535.00		16,84,674.00	12,43,618.00	4,41,056.00
52	2020-062-ईई-जेओएफ-एसईआरबी-एसपी	5,49,110.00		-		5,49,110.00	3,30,249.00	2,18,861.00
53	2020-063-सीएसई-एसएडी-एसईआरबी-एसपी	9,30,107.00		6,520.00		9,36,627.00	8,62,504.00	74,123.00
54	2021-064-एमई-एसएएम-एनआरबी-एसपी	28,34,000.00		4,640.00		28,38,640.00	3,89,640.00	24,49,000.00
55	2021-065-एमई-एसएसी-डीओएस-एसपी	17,95,500.00		3,66,000.00		21,61,500.00	10,26,799.00	11,34,701.00
56	2021-069-पीएचवाई-पीबीएस-डीएसटी-एसपी	-		24,66,820.00		24,66,820.00	14,34,623.00	10,32,197.00
57	2021-070-सीई-एमकेएम-एसईआरबी-एसपी	16,42,206.00		-		16,42,206.00	3,68,903.00	12,73,303.00
58	2021-071-सीएसई-यूएनसी-एनएसएम-एसपी	21,34,000.00		-		21,34,000.00	3,02,250.00	18,31,750.00
59	2021-072-पीएचवाई-वीआईवी-एनएसएम-एसपी	45,31,000.00		-		45,31,000.00	1,62,226.00	43,68,774.00
60	2021-073-सीएसई-एसएबी-एसईआरबी-एसपी	16,15,936.00		-		16,15,936.00	6,11,452.00	10,04,484.00
61	2021-074-ईई-एआरए-डीएसटी-एसपी	-		38,25,389.00		38,25,389.00	5,36,401.00	32,88,988.00
62	2021-075-ईई-वीएपी-आईटीआई-एसपी	-		5,00,000.00		5,00,000.00	4,83,007.00	16,993.00
63	2021-077-सीई-आरजेपी-सीडीआरआई-एसपी	-		3,68,000.00		3,68,000.00	2,19,452.00	1,48,548.00
64	2021-078-सीई-एसटीके-केएसआरआई-एसपी	-		20,00,000.00		20,00,000.00	1,45,051.00	18,54,949.00
65	2021-079- सीई-सीवीवी-एनबीडी-एसपी	-		3,00,000.00		3,00,000.00	50,000.00	2,50,000.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

66	2021-080—सीएचवाई—एसयूएस—सीएसआईआर—एसपी	-		4,56,084.00		4,56,084.00	2,43,666.00	2,12,418.00
67	2021-081—सीई—जीओसी—डीएसटी—एसपी	-		33,30,600.00		33,30,600.00	4,47,095.00	28,83,505.00
68	2021-082—सीई—डीपीवी—डीएसटी—एसपी	-		34,60,779.00		34,60,779.00	4,51,834.00	30,08,945.00
69	2021-083—सीई—डीपीवी—सीसीआरआई—एसपी	-		9,24,000.00		9,24,000.00	3,86,250.00	5,37,750.00
70	2021-084—सीई—डीपीवी—केआईआईएफबी—एसपी	-		50,82,000.00		50,82,000.00	-	50,82,000.00
71	2021-085—सीई—एसईवी—बीआईसी—एसपी	-		2,16,000.00		2,16,000.00	1,13,419.00	1,02,581.00
72	2021-086—बीएसई—एआरपी—डीबीटी—एसपी	-		24,72,000.00		24,72,000.00	15,73,796.00	8,98,204.00
73	2021-087—सीएसई—एसएबी—एनआरबी—एसपी	-		19,13,609.00		19,13,609.00	4,18,575.00	14,95,034.00
74	2021-088—ईई—आरईपी—डीओएस—एसपी	-		5,86,250.00		5,86,250.00	4,20,383.00	1,65,867.00
75	2021-089—ईई—एसकेडी—डीओएस—एसपी	-		3,06,000.00		3,06,000.00	43,260.00	2,62,740.00
76	2021-090—सीएसई—वीआईसी—एनटीआईएचएसी—एसपी	-		5,50,880.00		5,50,880.00	-	5,50,880.00
77	2021-091—पीएचवाई—पीआरबी—एसईआरबी—एसपी	-		14,14,331.00		14,14,331.00	90,652.00	13,23,679.00
78	2021-092—एमई—पीएमके—एसईआरबी—एसपी	-		25,33,180.00		25,33,180.00	1,48,090.00	23,85,090.00
79	2021-093—ईई—एमकेजे—एसईआरबी—एसपी	-		22,97,105.00		22,97,105.00	2,09,085.00	20,88,020.00
80	2021-094—एमई—बीयूवी—एसईआरबी—एसपी	-		23,59,930.00		23,59,930.00	1,48,170.00	22,11,760.00
81	2022-096—एमई—दिस—किनफ्रा—एसपी	-		3,22,926.00		3,22,926.00	-	3,22,926.00
82	2022-097—सीई—एटीपी—किनफ्रा—एसपी	-		2,42,927.00		2,42,927.00	2,27,478.00	15,449.00
83	2022-098—सीएचवाई—डीआईजे—किनफ्रा—एसपी	-		3,52,926.00		3,52,926.00	-	3,52,926.00
84	2022-099—ईई—सूद—किनफ्रा—एसपी	-		3,22,926.00		3,22,926.00	2,56,827.00	66,099.00
85	2022-100—ईई—वीआईएम—एसईआरबी—एसपी	-		24,59,530.00		24,59,530.00	2,02,693.00	22,56,837.00
86	2022-102—बीएसई—जेएबी—एसईआरबी—एसपी	-		1,08,300.00		1,08,300.00	-	1,08,300.00
87	2022-103—ईई—एलएनटी—एसईआरबी—एसपी	-		2,20,000.00		2,20,000.00	20,000.00	2,00,000.00
88	2022-104—ईई—आरा—एसईआरबी—एसपी	-		2,20,000.00		2,20,000.00	20,000.00	2,00,000.00
89	2022-105—पीएचवाई—पीआरएन—एसईआरबी—एसपी	-		2,20,000.00		2,20,000.00	20,000.00	2,00,000.00
90	2022-106—सीएचवाई—एसएचएस—डीएसटी—एसपी	-		12,50,000.00		12,50,000.00	-	12,50,000.00
91	2022-107—सीएचवाई—एसएचएस—डीएसटी—एसपी	-		40,54,496.00		40,54,496.00	-	40,54,496.00
92	कोविड 19 परियोजना — प्रो. विनोद	2,62,634.00		1,01,968.00		3,64,602.00	3,47,463.00	17,139.00
93	सीएसआर फंड — कोविड 19—शापूरजी पालनजी	3,47,109.00		-		3,47,109.00	-	3,47,109.00
94	डॉ अनुपमा बिन्हौय — एनपीडीएफ	8,68,729.00		9,12,800.00		17,81,529.00	8,28,425.00	9,53,104.00
95	डा. दुपदु चकधर “परफोर्मेंस इवेल्यूएशन ऑफ ए कायोजनेक कूलेंट” एसईआरबी ईसीआर / 2017 / 883	3,97,081.00		-		3,97,081.00	-	3,97,081.00
96	डॉ. जयकुमार डीएसटी नैनो मिशन	4,06,232.00		-		4,06,232.00	-	4,06,232.00
97	डॉ. परंगमा सरकार डीएसटी इंस्पायर	13,04,329.00		-		13,04,329.00	51,321.00	12,53,008.00
98	डॉ. प्रवीणा जी— एसईआरबी— ईसीआरए परियोजना	81,429.50		93,893.00		1,75,322.50	-	1,75,322.50
99	ग्लोबल एनीसिएटिव फॉर अकादमिक नेटवर्क्स (जीआईएन)	-		14,20,000.00		14,20,000.00	7,42,069.00	6,77,931.00
100	हाई—स्पीड ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर	19,54,360.00		-		19,54,360.00	18,44,378.00	1,09,982.00

ह/-

सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-

कुलसचिव

ह/-

निर्देशक

	एप्लीकेशन – डॉ. संदीप चंद्रन								
101	केरल राज्य भूजल विभाग	-		20,790.00		20,790.00	20,790.00		-
102	केवीपीवाई परीक्षा	-		5,00,000.00		5,00,000.00	5,00,000.00		-
103	एमए–जेसीआर–2018–002–एसईआरबी–पी	1,90,223.00		10,556.00		2,00,779.00	2,00,779.00		-
104	होमोस्टैटिक दबाव के बीच यांत्रिक संबंध - एसईआरबी-ईसीआरए- डॉ. विभुरंजन सारंगी	60,437.00		-		60,437.00	-	60,437.00	
105	एसटीपी वाटर टेर्सिंग – बिल्टेक एवेन्यु अपार्टमेंट ऑनर्स एशोसिएशन – डॉ. प्रवीन	4,000.00		-		4,000.00	-	4,000.00	
106	एक्सोकेन: सिक्यूर पब्लिक लेजर-डॉ. पियुष पी करुर	33,178.00		-		33,178.00	-	33,178.00	
107	कोवीन शिपयार्ड लिमिटेड – कोवाकाथन	-		15,00,000.00		15,00,000.00	15,00,000.00		-
108	सीएसआर जीएससीओई फंड – टैकिन	-		1,40,00,000.00		1,40,00,000.00	1,15,87,000.00	24,13,000.00	
109	प्रायोजन परियोजना-स्वरूप साहू	37,904.00		-		37,904.00	-	37,904.00	
110	प्रायोजन कार्यशाला- पीडब्ल्यूडी-केआईआईएफबी- टॉम वी मैथ्यू	10,800.00		-		10,800.00	-	10,800.00	
111	क्रिस्टल कार्यक्रम-केएससीएसटीई	-		1,20,000.00		1,20,000.00		1,20,000.00	
112	2022–006–जियान–बीकेबी	-		13,559.27		13,559.27		13,559.27	
113	2022–007–जियान–सब	-		5,084.66		5,084.66		5,084.66	
114	एआईसीटीई ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी प्रोग्राम	-		1,86,000.00		1,86,000.00	93,000.00	93,000.00	
115	एचपीसी शिक्षा कोष – डॉ संदीप चंद्रन	-		3,91,101.26		3,91,101.26		3,91,101.26	
116	परियोजना संख्या: 2021–001–डीएसटीएनएसएम–एसएसी	27,60,000.00		-		27,60,000.00	9,28,803.00	18,31,197.00	
117	एसपीसीएल परियोजना	-		15,08,770.00		15,08,770.00	4,84,295.00	10,24,475.00	
		7,57,68,905.39	-	8,73,58,052.19	-	16,31,26,957.58	7,62,80,801.50	8,68,46,156.08	-

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची –3 (ख) प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्तियां

1 क्र. सं.	2 प्रायोजक का नाम	1.4.2021 के अनुसार आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान लेनदेन		31.3.2022 के अनुसार अंतिम शेष	
		3 क्रेडिट	4 डेबिट	5 क्रेडिट	6 डेबिट	7 क्रेडिट	8 डेबिट
1	मेटिरियल और बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए ट्यूनेबल प्रोपर्टीज के साथ फंक्शनली नियंत्रित मैक्रोमॉलीक्यूल्स का आदर्श वर्गीकरण	6,17,536.00		7,76,676.00	8,85,433.00	5,08,779.00	
2	इन्सपायर फैलोशिप – अरझा ए	1,44,000.00		5,02,000.00	4,64,489.00	1,81,511.00	
3	इन्सपायर फैलोशिप – अतिन गयेन	30,862.00		4,40,000.00	4,50,862.00	20,000.00	
4	यूजीसी जेआरएफ छात्रवृत्ति–सौमिक डे	36,441.00		4,21,760.00	3,76,469.00	81,732.00	
5	प्रधान मंत्री शोध फैलोशिप	15,06,452.00		56,58,871.00	42,95,323.00	28,70,000.00	
6	डीबीटी आरए फैलोशिप – डॉ अनुपमा बिनॉय	38,781.00			38,781.00	-	
7	सीएसआईआर आक्रिमिकता – अन्ना सेबेस्टियन	-		20,000.00		20,000.00	
8	सीएसआईआर आक्रिमिकता – जीजू मामेन	-		20,000.00		20,000.00	
9	सीएसआईआर आक्रिमिकता – रेवती एस	-		20,000.00	14,267.00	5,733.00	
	कुल	23,74,072.00	0.00	78,59,307.00	65,25,624.00	37,07,755.00	0.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 3 (ग) यूजीसी, भारत सरकार और राज्य सरकारों से अनुप्रयुक्त अनुदान

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. योजनागत अनुदान: भारत सरकार		
आगे ले जाया गया शेष	86,42,59,141.97	32,19,86,280.02
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति	4,28,33,48,810.00	1,70,41,53,935.00
कुल (क)	5,14,76,07,951.97	2,02,61,40,215.02
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	62,25,16,202.96	54,62,97,389.50
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	1,73,12,35,136.13	34,05,83,683.55
घटा: हेफा के लिए मूलधन चुकाना	1,57,47,71,624.32	27,50,00,000.00
घटा: भारत सरकार को धनवापसी	7,61,69,797.00	
कुल (ख)	4,00,46,92,760.41	1,16,18,81,073.05
आगे ले जाया गया अनुप्रयुक्त (क-ख)	1,14,29,15,191.56	86,42,59,141.97
ख. यूजीसी अनुदान: योजनागत		
आगे ले जाया गया शेष		
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति		
कुल (ग)		
घटा वापसी		
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त		
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त		
कुल (घ)		

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

आगे ले जाया गया अनुप्रयुक्त (ग-घ)		
ग. यूजीसी अनुदान: योजनागत		
आगे ले जाया गया शेष वर्ष के दौरान प्राप्त		
	कुल (ड)	
घटा वापसी घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त		
	कुल (च)	
आगे ले जाया गया अनुप्रयुक्त (ड-च)		
घ. राज्य सरकार से अनुदान		
आगे ले जाया गया शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त		
	कुल (छ)	
घटा: वापसी घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त		
	कुल (ज)	
आगे ले जाया गया अनुप्रयुक्त (छ-ज)		
सकल योग (क+ख+ग+घ)	1,14,29,15,191.56	86,42,59,141.97

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची – ३घ सुरक्षित ऋण		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी से सावधि ऋण	-	1,60,01,39,298.68
कुल	-	1,60,01,39,298.68

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 4: अचल संपत्तियां

क्र.सं.	संपत्ति शीर्ष	सकल ब्लाक			वर्ष 2021–22 के लिए अवमूल्यन				निवल ब्लाक	निवल ब्लाक
		01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष	जमा	कटौती	31.3.2022 के अनुसार अंतिम शेष	आरंभिक शेष	वर्ष के लिए अवमूल्यन	कटौती/समायोजन		
1	भूमि	-			-	-	-	-		
2	स्थल विकास	-			-	-	-	-		
3	भवन	11,22,87,508.00	20,40,882.00		11,43,28,390.00	23,56,790.16	22,86,567.80		46,43,357.96	10,96,85,032.04
4	सड़क और पुल	-			-	-	-	-		
5	ट्यूबवेल और जल आपूर्ति	40,90,645.86			40,90,645.86	1,66,520.62	81,812.92		2,48,333.53	38,42,312.33
6	सीवरेज और ड्रेनेज	-			-	-	-	-	-	-
7	सीवरेज और ड्रेनेज	1,78,41,892.00	10,31,238.00		1,88,73,130.00	23,94,294.00	9,43,656.50		33,37,950.50	1,55,35,179.50
8	प्लाट और मशीनरी	3,38,15,081.80	31,40,932.00		3,69,56,013.80	80,74,116.87	18,47,800.69		99,21,917.56	2,70,34,096.24
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	58,68,09,892.84	17,66,73,715.33		76,34,83,608.17	9,99,10,692.35	6,86,53,211.65		16,85,63,904.00	59,49,19,704.17
10	कार्यालय उपकरण	1,05,78,011.00	87,66,685.00	8,498.00	1,93,36,198.00	18,68,214.46	14,50,214.85	1,835.00	33,16,594.31	1,60,19,603.70
11	ऑडियो विजुअल उपकरण	1,26,01,252.00	1,49,630.00		1,27,50,882.00	46,78,119.90	9,56,316.15		56,34,436.05	71,16,445.95
12	कम्प्यूटर्स और सहायक उपकरण	11,41,40,136.00	1,28,13,686.00	72,000.00	12,68,81,822.00	7,66,10,925.40	1,67,61,237.20	41,465.00	9,33,30,697.60	3,35,51,124.40
13	फर्निचर, फिक्सर्स और फिटिंग्स	6,03,34,006.00	1,33,41,716.00		7,36,75,722.00	1,46,71,181.19	55,25,679.15		2,01,96,860.34	5,34,78,861.66
14	वाहन	12,23,802.00	-		12,23,802.00	4,89,520.80	1,22,380.20		6,11,901.00	6,11,901.00
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक जर्नल	1,66,96,321.00	7,56,402.00		1,74,52,723.00	33,31,695.40	17,45,272.30		50,76,967.70	1,23,75,755.30
16	खेल मद्दें	7,13,003.00	98,294.00		8,11,297.00	1,67,546.60	81,129.70		2,48,676.30	5,62,620.70
17	लघु मूल्य संपत्तियां खेल मद्दें सहित	3,55,813.00	-		3,55,813.00	3,55,813.00	-		3,55,813.00	-

ह/-

सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-

कुलसचिव

ह/-

निर्देशक

	कुल (क)	97,14,87,364.50	21,88,13,180.33	80,498.00	-	1,19,02,20,046.83	21,50,75,430.74	10,04,55,279.11	43,300.00	31,54,87,409.85	87,47,32,636.98	75,64,11,933.76
18	प्रगतिरत पूँजीगत कार्य (ख)	2,43,55,16,048.81	1,58,32,19,429.88	7,93,95,715.59	3,93,93,39,763.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,93,93,39,763.10	2,43,55,16,048.81	
क्र.स.	अवास्तविक संपत्तियां	सकल ब्लाक			वर्ष 2021–22 के लिए अवमूल्यन				निवल ब्लाक	निवल ब्लाक	निवल ब्लाक	
		01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष	जमा जमा	कटौती कटौती	31.3.2022 के अनुसार अंतिम शेष	आरंभिक शेष	वर्ष के लिए अवमूल्यन	कटौती/समायोजन	कुल अवमूल्यन	31.03.2022	31.03.2021	
19	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	4,91,23,885.50	87,41,336.00	-	5,78,65,221.50	3,82,26,301.80	1,18,32,724.40	-	5,00,59,026.20	78,06,195.30	1,08,97,583.70	
21	पेटेट, जानकारी, कापीराइट	6,02,408.00	-	-	6,02,408.00	2,16,570.23	66,934.22	-	2,83,504.45	3,18,903.55	3,85,837.77	
22	ई-जार्नल	4,50,76,713.00	4,16,06,024.00	-	8,66,82,737.00	3,01,24,302.90	2,85,60,335.60	-	5,86,84,638.50	2,79,98,098.50	1,49,52,410.10	
23	संस्थान लोगो	3,93,600.00	-	-	3,93,600.00	3,93,600.00	-	-	3,93,600.00	-	-	
कुल (ग)		9,51,96,606.50	5,03,47,360.00	0.00	14,55,43,966.50	6,89,60,774.93	4,04,59,994.22	0.00	10,94,20,769.15	3,61,23,197.35	2,62,35,831.57	
सकल योग (क+ख+ग)		3,50,22,00,019.81	1,85,23,79,970.21	7,94,76,213.59	5,27,51,03,776.43	28,40,36,205.67	14,09,15,273.33	43,300.00	42,49,08,179.00	4,85,01,95,597.43	3,21,81,63,814.14	

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 4क: अचल संपत्तियां

क्र.सं.	संपत्ति शीर्ष	सकल ब्लाक			वर्ष 2021–22 के लिए अवमूल्यन				निवल ब्लाक	निवल ब्लाक
		01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष	जमा	कटौती	31.3.2022 के अनुसार अंतिम शेष	आरंभिक शेष	वर्ष के लिए अवमूल्यन	कटौती/समायोजन		
1	भूमि	-			-	-	-	-	-	
2	स्थल विकास	-			-	-	-	-	-	
3	भवन	11,22,87,508.00	20,40,882.00		11,43,28,390.00	23,56,790.16	22,86,567.80		46,43,357.96	10,96,85,032.04
4	सड़क और पुल	-			-	-	-	-	-	
5	दयूबबेल और जल आपूर्ति	40,90,645.86			40,90,645.86	1,66,520.62	81,812.92		2,48,333.53	38,42,312.33
6	सीवरेज और ड्रेनेज	-			-	-	-	-	-	
7	सीवरेज और ड्रेनेज	1,78,41,892.00	10,31,238.00		1,88,73,130.00	23,94,294.00	9,43,656.50		33,37,950.50	1,55,35,179.50
8	प्लाट और मशीनरी	3,38,15,081.80	31,40,932.00		3,69,56,013.80	80,74,116.87	18,47,800.69		99,21,917.56	2,70,34,096.24
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	58,68,09,892.84	17,66,73,715.33		76,34,83,608.17	9,99,10,692.35	6,86,53,211.65		16,85,63,904.00	59,49,19,704.17
10	कार्यालय उपकरण	1,05,78,011.00	87,66,685.00	8,498.00	1,93,36,198.00	18,68,214.46	14,50,214.85	1,835.00	33,16,594.31	1,60,19,603.70
11	ऑडियो विजुअल उपकरण	1,26,01,252.00	1,49,630.00		1,27,50,882.00	46,78,119.90	9,56,316.15		56,34,436.05	71,16,445.95
12	कम्प्यूटर्स और सहायक उपकरण	11,41,40,136.00	1,28,13,686.00	72,000.00	12,68,81,822.00	7,66,10,925.40	1,67,61,237.20	41,465.00	9,33,30,697.60	3,35,51,124.40
13	फर्निचर, फिक्सचर्स और फिटिंग्स	6,03,34,006.00	1,33,41,716.00		7,36,75,722.00	1,46,71,181.19	55,25,679.15		2,01,96,860.34	5,34,78,861.66
14	वाहन	12,23,802.00	-		12,23,802.00	4,89,520.80	1,22,380.20		6,11,901.00	6,11,901.00
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक जर्नल	1,66,96,321.00	7,56,402.00		1,74,52,723.00	33,31,695.40	17,45,272.30		50,76,967.70	1,23,75,755.30
16	खेल मर्दे	7,13,003.00	98,294.00		8,11,297.00	1,67,546.60	81,129.70		2,48,676.30	5,62,620.70
17	लघु मूल्य संपत्तियां खेल मर्दों सहित	3,55,813.00	-		3,55,813.00	3,55,813.00	-		3,55,813.00	-

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

	कुल (क)	97,14,87,364.50	21,88,13,180.33	80,498.00	1,19,02,20,046.83	21,50,75,430.74	10,04,55,279.11	43,300.00	31,54,87,409.85	87,47,32,636.98	75,64,11,933.76
क्र.सं.	अवास्तविक संपत्तियां	01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष	जमा जमा	कटौती कटौती	31.3.2022 के अनुसार अंतिम शेष	आरंभिक शेष	वर्ष 2021–22 के लिए अवमूल्यन	निवल ब्लाक	निवल ब्लाक		
18	प्रगतिरत पूँजीगत कार्य (ख)	2,43,55,16,048.81	1,58,32,19,429.88	7,93,95,715.59	3,93,93,39,763.10	0.00	0.00	0.00	3,93,93,39,763.10	2,43,55,16,048.81	
19	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	4,91,23,885.50	87,41,336.00	-	5,78,65,221.50	3,82,26,301.80	1,18,32,724.40	-	5,00,59,026.20	78,06,195.30	1,08,97,583.70
21	पेटेट, जानकारी, कार्पोराइट	6,02,408.00	-	-	6,02,408.00	2,16,570.23	66,934.22	-	2,83,504.45	3,18,903.55	3,85,837.77
22	ई-जर्नल	4,50,76,713.00	4,16,06,024.00	-	8,66,82,737.00	3,01,24,302.90	2,85,60,335.60	-	5,86,84,638.50	2,79,98,098.50	1,49,52,410.10
23	संस्थान लोगो	3,93,600.00	-	-	3,93,600.00	3,93,600.00	-	-	3,93,600.00	-	-
	कुल (ग)	9,51,96,606.50	5,03,47,360.00	0.00	14,55,43,966.50	6,89,60,774.93	4,04,59,994.22	0.00	10,94,20,769.15	3,61,23,197.35	2,62,35,831.57
	सकल योग (क+ख+ग)	3,50,22,00,019.81	1,85,23,79,970.21	7,94,76,213.59	5,27,51,03,776.43	28,40,36,205.67	14,09,15,273.33	43,300.00	42,49,08,179.00	4,85,01,95,597.43	3,21,81,63,814.14

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 5: चिन्हित/वृत्तिदान निधियों से निवेश

	चालू वर्ष	राशि रूपये में
		पिछला वर्ष
1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
4 शेयर्स	-	-
5 डिबेंचर्स और ऋणपत्र	-	-
6 बैंक में सावधि जमा	36,84,300.00	31,85,176.39
7 अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	36,84,300.00	31,85,176.39

अनुसूची 5(क): निर्धारित/वृत्तिदान निधि से निवेश (निधि-वार)

	निधि	चालू वर्ष	राशि रूपये में
क्र. सं.			पिछला वर्ष
1	वृत्तिदान निधि	30,67,475.00	
2	पूर्व छात्र निधि	6,16,825.00	
3			
4			
5			
	कुल	36,84,300.00	

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 6 – निवेश – अन्य

	चालू वर्ष	राशि रूपये में पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में		
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में		
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
4. शेयर्स		
5. डिबेंचर्स और ऋणपत्र		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल		

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 7: चालू परिसंपत्तियां

विवरण	चालू वर्ष	राशि रूपये में पिछला वर्ष
1. भंडार		
क) स्टोर तथा स्पेयर्स		
ख) खुले उपकरण		
ग) प्रकाशन		
घ) प्रयोगशाला रसायन, उपभोज्य और ग्लास वेयर		
ड) भवन सामग्री		
च) विद्युत सामग्री		
छ) स्टेशनरी		
ज) जल आपूर्ति सामग्री		
2. विविध देनदारः		
क) छः महीने से अधिक के लिए बकाया ऋण		
ख) अन्य	41,13,095.00	34,85,692.00
3. हाथ रोकड़ तथा बैंक बकाया		
क) अनुसूचित बैंकों के पास:-		
- चालू खातों में	20,72,27,723.10	14,07,50,365.11
- सावधि जमा खाते में	48,50,97,023.55	64,14,06,970.50
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास:		
- सावधि जमा खाते में		
- बचत खाते में		
ग) हाथ रोकड़	-	4,713.00
4. इम्प्रेस्ट खाता	2,00,000.00	1,67,129.55
5. डाकघर-बचत खाता		
6. प्राप्य कर्तव्य और कर		
कुल	69,66,37,841.65	78,58,14,870.16

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुबंध क			
I. बचत बैंक खाता		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. छात्रावास खाता—6174101000765		5,45,21,159.37	1,13,93,075.57
2. परियोजना खाता —6174101000764		9,50,41,291.56	8,00,57,879.89
3. आरएफएसी खाता —6174201000020		37,20,796.00	18,30,799.00
4. एचडीएफसी व्यवसाय विकास कक्ष खाता —50100246656600		4,13,129.00	4,60,155.00
5. एचडीएफसी शुल्क संग्रह खाता—50100244440102		23,93,205.74	8,72,704.74
6. एक्सेस बैंक—919010095958004		4,64,313.53	3,91,356.53
7. कैनरा बैंक एल्युमनी सेल—6174101001183		15,25,100.85	6,59,647.85
8. कैनरा बैंक वृत्तिदान निधि—6174101001126		61,097.13	59,287.13
9. कैनरा बैंक—I स्टेम—6174101001295		25,83,905.85	11,01,795.85
10. आईसीआईसीआई—262801000395		4,97,645.00	4,82,018.00
11. फेडरल बैंक - 15240100087514		1,37,506.00	2,48,963.00
12. एसबीआई गेरस्ट हाउस खाता - 39938270076		3,25,028.06	96,474.06
13. कैनरा बैंक 6174101001452 सीईसी आईआईटी फीकेडी		22,80,550.00	34,95,321.00
II. चालू खाता			
1. एसबीआई अनुदान खाता (संस्थान का मुख्य खाता) — 35520964533		2,84,31,054.86	3,74,21,562.90
2. एसबीआई I संग्रह खाता —35512802266		72,81,240.05	12,75,931.05
3. एक्सेस बैंक — 9200200096112052		20,000.00	20,000.00
4. कैनरा बैंक हेफा ब्याज पुनर्भुगतान— 6174101001029		64,219.00	44,221.00
5. कैनरा बैंक एलसी — 6174201000054		3,19,876.90	4,39,508.34
6. कैनरा बैंक कोरपस — 617421400003		11,65,663.20	1,59,299.20
7. एचडीएफसी— 50100500380524—जीएससीओई खाता		4,02,096.00	-
8. कैनरा बैंक हेफा मूलधन चुकाना — 6174101001028		55,78,845.00	2,40,365.00
9. आरबीआई— ट्रेजरी सिंगल अकाउंट—10684301001		-	
III. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा		48,50,97,023.55	64,29,12,395.50
कुल		69,23,24,746.65	78,36,62,760.61

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 8 – ऋण, अग्रिम और जमा

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. कर्मचारियों के लिए अग्रिम (गैर-ब्याज सहित)			
क. वेतन			
ख. उत्सव			
ग. चिकित्सा अग्रिम			
घ. अन्य (सीपीडीए और अस्थायी अग्रिम)	28,000.00	11,52,497.00	
2. कर्मचारियों को दीर्घावधि अग्रिम (ब्याज सहित)			
क. वाहन ऋण			
ख. आवास ऋण			
ग. अन्य (उल्लेख करें)			
3. नगद अथवा इस प्रकार के अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशि:			
क. पूँजीगत खाते पर			
ख. आपूर्तिकर्ताओं को	1,90,49,764.04	2,48,96,821.52	
ग. अन्य			
i) सीमा शुल्क बॉमर लारी एंड क. को अग्रिम	7,061.00	7,061.00	
ii) केंद्रीय पीडब्ल्यूडी	1,08,88,61,484.00	60,31,80,233.00	
iii) शुल्क प्राप्ति	17,14,038.00	9,86,538.00	
iv) आरटीआई शुल्क प्राप्ति	420.00	582.00	
v) उन्नत वसूली योग्य	5,18,155.00	50.00	
vi) उन्नत आईआईएम बैंगलोर	2,37,500.00		
4. पूर्वप्रदत्त व्यय			
क. बीमा			
ख. अन्य व्यय ई जर्नल			
5. जमा			
क. टेलीफोन		4,52,225.00	
ख. लीज किराया	22,000.00	22,000.00	
ग. बिजली	11,76,300.00	11,76,300.00	
घ. एआईसीटीई, यदि लागू हो			
ड. अन्य (गेस)	23,450.00	23,450.00	
च. अन्य (बिजली के लिए अहिल्या इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ)	9,36,190.00	9,36,190.00	
छ. अन्य (केरल जल प्राधिकरण के साथ)	6,85,000.00	6,85,000.00	
6. अर्जित आय			
क. चिन्हित / वृत्तिदान निधियों से निवेश पर	2,92,829.00		

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

ख. निवेश पर अन्य		33,50,791.00	
ग. ऋण तथा अग्रिम पर			
घ. अन्य (प्राप्ति योग्य टीडीएस)		10,00,868.04	5,56,981.20
7. अन्य – यूजीसी/प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्ति योग्य चालू संपत्ति			
क. प्रायोजित परियोजनाओं में बकाया डेबिट			
ख. प्रायोजित फेलोशिप तथा छात्रवृत्ति में बकाया डेबिट			
ग. एमएचआरडी से प्राप्ति योग्य अनुदान			7,68,00,000.00
घ. यूजीसी से अन्य प्राप्ति योग्य			
8. प्राप्ति योग्य दावे			
क. किराया अग्रिम/अधिक किराये का भुगतान			
ख. फ्रैंकिंग मशीन के लिए अग्रिम		6,000.00	6,000.00
कुल		1,11,79,09,850.08	71,08,81,928.72

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 9: शैक्षिक प्राप्तियां

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
छात्रों से फीस		
शैक्षिक		
1. ट्यूशन फीस	7,08,60,874.00	6,35,54,705.00
2. प्रवेश शुल्क	1,05,900.00	1,07,550.00
3. पंजीकरण / नामांकन फीस	7,10,300.00	5,76,900.00
4. पुस्तकालय प्रवेश फीस		
5. प्रयोगशाला फीस		
6. कला तथा काफ्ट फीस		
7. पंजीकरण फीस		
8. पाठ्यक्रम फीस		
9. अन्य एक बारगी फीस	1,94,150.00	2,90,400.00
कुल (क)	7,18,71,224.00	6,45,29,555.00
परीक्षा		
1. प्रवेश परीक्षा फीस		
2. वार्षिक परीक्षा फीस	11,16,100.00	9,60,900.00
3. मार्क शीट, प्रमाण पत्र फीस	2,19,080.00	1,37,000.00
4. प्रवेश परीक्षा फीस		
कुल (ख)	13,35,180.00	10,97,900.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अन्य फीस		
1. पहचान पत्र फीस		
2. फाईन/विविध फीस	1,45,283.00	1,29,703.00
3. चिकित्सा फीस और छात्र चिकित्सा बीमा	7,58,400.00	6,33,446.00
4. जिमखाना फीस	28,43,123.00	22,84,800.00
5. छात्रावास फीस	4,55,56,859.42	1,98,93,648.00
कुल (ग)	4,93,03,665.42	2,29,41,597.00
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश पत्रों की बिक्री		
2. पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र इत्यादि की बिक्री		
3. प्रवेश पत्रों सहित विवरणिका की बिक्री		
कुल (घ)		
अन्य शैक्षिक प्राप्तियां		
1. कार्यशालाओं, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण फीस		
2. पंजीकरण फीस (शैक्षिक स्टाफ कॉलेज)		
3. छात्र कल्याण फीस	12,29,000.00	10,10,100.00
4. विद्युत और जल प्रभार	10,69,067.00	1,07,201.00
कुल (ड)	22,98,067.00	11,17,301.00
सकल योग (क+ख+ग+घ+ड)	12,48,08,136.42	8,96,86,353.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 10: अनुदान (इमदाद गैर वसूली योग्य प्राप्त अनुदान)

विवरण	योजनागत			कुल योजना	गैर-योजना यूजीसी	कुल चालू वर्ष	कुल पिछला वर्ष				
	भारत सरकार	यूजीसी									
		योजना	विशिष्ट योजनाएं								
आगे ले जाया गया बकाया	86,42,59,141.97	-		-	-	86,42,59,141.97	32,19,86,280.02				
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति	4,28,33,48,810.00	-			-	4,28,33,48,810.00	1,70,41,53,935.00				
कुल	5,14,76,07,951.97	-		-	-	5,14,76,07,951.97	2,02,61,40,215.02				
घटा: यूजीसी को वापसी	7,61,69,797.00	-			-	7,61,69,797.00	-				
बकाया	5,07,14,38,154.97	-		-	-	5,07,14,38,154.97	2,02,61,40,215.02				
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त (क)	1,73,12,35,136.13	-			-	1,73,12,35,136.13	34,05,83,683.55				
बकाया	3,34,02,03,018.84				-	3,34,02,03,018.84	1,68,55,56,531.47				
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त (ख)	62,25,16,202.96			-	-	62,25,16,202.96	54,62,97,389.50				
घटा: हेफा प्रधान पुनः भुगतान के लिए प्रयुक्त (ग)	1,57,47,71,624.32					1,57,47,71,624.32	27,50,00,000.00				
आगे ले जाया गया बकाया (ग)	1,14,29,15,191.56	-	-	-	-	1,14,29,15,191.56	86,42,59,141.97				

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 11: निवेश से आय				राशि रूपये में	
विवरण	चिन्हित/वृत्तिदान निधियां		अन्य निवेश		
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	
1. ब्याज					
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर					
ख. अन्य <u>ऋणपत्र/डिबेचर्स</u>					
2. सावधि जमा पर ब्याज			51,50,723.00	44,50,142.95	
3. सावधि जमा पर अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज					
4. बचत बैंक खाते पर ब्याज					
5. अन्य (एल्युमनी सेल)				34,880.25	
कुल	-	-	51,50,723.00	44,85,023.20	
चिन्हित/वृत्तिदान निधि में अंतरित					
बकाया	-	-	51,50,723.00	44,85,023.20	

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

12: अर्जित ब्याज

विवरण	राशि रूपये में	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. अनुसूचित बैंकों में बचत खाते पर	12,84,045.00	26,27,827.00
2. ऋण पर		
क. कर्मचारी / स्टाफ		
ख. अन्य – एसबी ब्याज		
3. ऋण तथा अथा अन्य प्राप्तियों पर		
कुल	12,84,045.00	26,27,827.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 13: अन्य आय

- विविध आय में शामिल वास्तविक राशि की प्राप्ति अलग से दर्शायी जानी चाहिए

		राशि रूपये में
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. भूमि तथा भवन से आय		
1. छात्रावास कमरा किराया	24,67,335.00	6,50,360.00
2. लाइसेंस फीस	70,653.00	1,01,290.00
3. ऑडिटोरियम / खेल मैदान/समारोह केन्द्र इत्यादि के किराया प्रभार	3,53,612.68	12,500.00
4. वसूले गए विद्युत प्रभार		
5. वसूले गए जल प्रभार		
कुल	28,91,600.68	7,64,150.00
ख. संस्थान के प्रकाशनों की बिकी		
ग. इवेंट आयोजित करने से आय		
1. वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवल से सकल प्राप्ति		
घटा: वार्षिक समारोह/खेल कार्निवल पर हुआ सीधा व्यय		
2. फीट्स से सकल प्राप्तियां		
घटा: फीट्स पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय		
3. शैक्षिक दौरों से सकल प्राप्तियां		
घटा: दौरों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय		
4. अन्य (कैरियर विकास केंद्र)	2,82,939.00	1,99,500.00
कुल	2,82,939.00	1,99,500.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

घ. अन्य		
1. परामर्श से आय		
2. आरटीआई फीस	170.00	162.00
3. रॉयलटी से आय		
4. आवेदन पत्रों की बिक्री (भर्ता)	18,90,087.00	12,62,344.00
5. विविध प्राप्तियां (विदेशी मुद्रा लाभ)		
6. संपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली संपत्तियां		
ख) निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां		
7. संस्थाओं, कल्याण निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/दान		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
विविध प्राप्ति – संस्थान का मुख्य खाता	5,03,825.71	2,62,005.00
विविध प्राप्ति – छात्रावास खाता		800.00
I स्टेम प्राप्ति	4,71,012.59	8,39,405.00
सीएमएफएफ विनिर्माण प्रभार		4,17,627.00
अतिथि कक्ष आय	5,72,868.00	1,08,318.00
कुल	34,37,963.30	28,90,661.00
सकल योग (क+ ख+ग+घ)	66,12,502.98	38,54,311.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 14: पूर्व अवधि आय

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	राशि रूपये में
1. शैक्षिक प्राप्तियां			-
2. निवेश से आय			-
3. अर्जित ब्याज			-
4. अन्य आय / छात्रावास	2,75,675.00	2,93,200.00	
कुल	2,75,675.00	2,93,200.00	

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 15: स्टाफ भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	योजनेत्तर	गैर-योजनेत्तर	कुल
क. वेतन और मजदूरी	16,15,68,581.00		16,15,68,581.00	15,54,25,011.00		15,54,25,011.00
ख. भत्ता और बोनस	6,75,00,771.00		6,75,00,771.00	4,45,71,029.00		4,45,71,029.00
ग. भविष्य निधि में अंशदान			-			-
घ. अन्य निधि में अंशदान—एनपीएस	2,83,53,967.00		2,83,53,967.00	2,36,44,908.00		2,36,44,908.00
ड. स्टाफ कल्याण व्यय			-			-
च. सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ			-			-
छ. एलटीसी सुविधा	26,88,578.00		26,88,578.00	19,62,290.00		19,62,290.00
ज. चिकित्सा सुविधा			-	7,82,103.00		7,82,103.00
झ. बाल शिक्षा भत्ता	7,33,500.00		7,33,500.00	6,77,250.00		6,77,250.00
ज. मानदेय	36,77,843.00		36,77,843.00	5,62,575.00		5,62,575.00
ट. पूर्व छात्र दान			-			-
ठ. समूह बीमा			-	2,53,240.00		2,53,240.00
ड. एलआईसी प्रीमियम			-			-
ढ. चिकित्सा फीस			-			-
त. अन्य (अवकाश वेतन अंशदान)	3,78,409.00		3,78,409.00	6,73,095.00		6,73,095.00
:अवकाश नगदीकरण	1,12,08,120.00		1,12,08,120.00	90,46,409.00		90,46,409.00
:पेशन अंशदान	8,26,008.00		8,26,008.00	11,26,494.00		11,26,494.00
:कार्यग्रहण समय वेतन			-	9,272.00		9,272.00
कुल	27,69,35,777.00		27,69,35,777.00	23,87,33,676.00		- 23,87,33,676.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 15 क: कर्मचारी सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ

				राशि रूपये में
	पेंशन	ग्रेचुअटी	अवकाश नकदीकरण	कुल
01.04.2021 के अनुसार आरंभिक शेष				
जमा: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान का पूंजीकृत मूल्य				
कुल (क)				
घटा: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)				
31.3.2021 के अनुसार उपलब्ध बकाया ग (क-ख)				
अर्जन मूल्यांकन के अनुसार 31.3.2021 को आवश्यक प्रावधान (घ)				
क. चालू वर्ष में किए जाने वाले प्रावधान (घ-ग)				
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान				
ग. सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को विकित्सा प्रतिपूर्ति				
घ. सेवानिवृत्ति पर होमटाउन यात्रा				
ड. जमा लिंकड बीमा भुगतान				
कुल (क+ख+ग+घ)				

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 16: शैक्षिक व्यय

राशि रूपये में

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल
क. प्रयोगशाला व्यय	41,90,134.00		41,90,134.00	45,43,793.52		45,43,793.52
ख. फील्ड कार्य / सम्मेलनों में भागीदारी (ओबीटी)	3,02,760.00		3,02,760.00			-
ग. सेमीनार / कार्यशाला पर व्यय	35,13,969.00		35,13,969.00	9,81,339.02		9,81,339.02
घ. विजिटिंग संकाय को भुगतान	7,60,000.00		7,60,000.00	3,58,000.00		3,58,000.00
ड. परीक्षा			-			-
च. छात्र कल्याण व्यय	49,387.00		49,387.00	1,95,704.00		1,95,704.00
छ. प्रवेश व्यय			-			-
ज. दीक्षांत समारोह व्यय	8,44,136.00		8,44,136.00	2,48,176.00		2,48,176.00
झ. प्रकाशन			-			-
ट. स्टाइपंड / साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	7,76,55,486.00		7,76,55,486.00	5,69,04,258.00		5,69,04,258.00
ठ. अंशदान व्यय			-			-
ड. अन्य (उल्लेख करें)			-			-
i. चिकित्सा बीमा एवं व्यय	64,549.00		64,549.00	10,69,301.00		10,69,301.00
ii. अन्य व्यय	4,54,493.00		4,54,493.00	6,64,705.20		6,64,705.20
iii. प्लेसमेंट व्यय	1,15,084.00		1,15,084.00	3,36,265.00		3,36,265.00
कुल	8,79,49,998.00	-	8,79,49,998.00	6,53,01,541.74	-	6,53,01,541.74

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 17: प्रशासनिक और सामान्य व्यय

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष			राशि रूपये में
	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	
क अवसंरचना							
क) विद्युत तथा पावर	1,58,19,190.00		1,58,19,190.00	1,39,99,484.00			1,39,99,484.00
ख) जल प्रभार	65,86,794.00		65,86,794.00	12,70,896.00			12,70,896.00
ग) बीमा			-				
घ) किराया, दर तथा कर (सम्पत्ति कर सहित)	6,41,36,811.00		6,41,36,811.00	5,34,77,341.00			5,34,77,341.00
ख संचार			-				
ड) डाक और टेलीग्राम	46,444.00		46,444.00	1,12,736.90			1,12,736.90
च) टेलीफोन फैक्स और इंटरनेट प्रभार	46,61,940.00		46,61,940.00	31,35,309.00			31,35,309.00
ग अन्य			-				
छ) मुद्रण और स्टेशनरी (उपयोग)	12,31,125.00		12,31,125.00	8,30,358.00			8,30,358.00
ज) यात्रा और परिवहन प्रभार	10,30,664.00		10,30,664.00	7,14,067.00			7,14,067.00
झ) मेजबानी	11,17,340.00		11,17,340.00	6,49,165.64			6,49,165.64
ञ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	5,58,340.00		5,58,340.00	4,54,100.00			4,54,100.00
ट) व्यावसायिक प्रभार	1,50,000.00		1,50,000.00	50,850.00			50,850.00
ठ) विज्ञापन और प्रचार	27,85,784.00		27,85,784.00	30,76,280.00			30,76,280.00
ड) मैगजीन तथा जर्नल	29,909.00		29,909.00	26,359.00			26,359.00
घ) अन्य (उल्लेख करें)			-				
i. सुरक्षा सेवाएं	1,56,78,302.32		1,56,78,302.32	96,75,933.60			96,75,933.60
ii. हाउस कीपिंग प्रभार	60,86,150.00		60,86,150.00	50,83,479.64			50,83,479.64
iii. आईआईटी सचिवालय को भुगतान किए गए संचालन व्यय	11,00,000.00		11,00,000.00	1,00,000.00			1,00,000.00
iv. अन्य कार्यालय व्यय	30,57,641.00		30,57,641.00	27,04,640.48			27,04,640.48
v. अनुबंध कर्मचारियों को पारिश्रमिक	2,15,04,210.00		2,15,04,210.00	2,15,25,818.74			2,15,25,818.74
vi. स्टाफ कल्याण व्यय	18,597.00		18,597.00	1,47,130.00			1,47,130.00
vii. चिकित्सा बीमा-संकाय/स्टाफ	12,07,583.00		12,07,583.00	28,80,074.00			28,80,074.00
viii. विद्युत मदें/उपमोडम	46,67,850.00		46,67,850.00	30,27,008.34			30,27,008.34
कुल	15,14,74,674.32	-	15,14,74,674.32	12,29,41,031.34	-	12,29,41,031.34	

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 18 – परिवहन व्यय

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष			राशि रूपये में
	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	
1. वाहन (संस्थान के स्वामित्व वाले)							
क) चालू व्यय	1,18,167.00		1,18,167.00	91,598.00			91,598.00
ख) मरम्मत और अनुरक्षण	79,179.00		79,179.00	14,735.00			14,735.00
ग) बीमा व्यय	19,050.00		19,050.00	21,151.00			21,151.00
			-				
2. किराए / लीज पर लिए गए वाहन			-				
क) किराया / लीज व्यय							-
3. वाहन किराया व्यय	55,29,938.00		55,29,938.00	63,51,957.00			63,51,957.00
कुल	57,46,334.00	-	57,46,334.00	64,79,441.00	-		64,79,441.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 19: मरम्मत और अनुरक्षण

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष			राशि रूपये में
	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	
क) भवन	1,16,14,595.00		1,16,14,595.00	31,47,565.80		31,47,565.80	
ख) फर्नीचर तथा फिक्सचर्स			-	31,850.00		31,850.00	
ग) प्लांट तथा मशीनरी	34,63,083.00		34,63,083.00	30,56,169.05		30,56,169.05	
घ) बिजली उपकरण	31,00,600.00		31,00,600.00	1,03,266.00		1,03,266.00	
ड) कम्प्यूटर			-	2,15,267.27		2,15,267.27	
च) प्रयोगशाला और वैज्ञानिक उपकरण	38,17,615.00		38,17,615.00	64,25,720.97		64,25,720.97	
छ) ऑडियो विजुअल उपकरण			-				-
ज) सफाई सामग्री और सेवाएं			-				-
झ) जिल्डबंदी प्रभार			-				-
अ) बागवानी	12,77,317.00		12,77,317.00	6,56,051.00		6,56,051.00	
ट) सम्पदा अनुरक्षण			-				-
ठ) अन्य (प्लम्बिंग और विद्युत कार्य)	5,57,216.00		5,57,216.00	8,78,194.00		8,78,194.00	
कुल	2,38,30,426.00	-	2,38,30,426.00	1,45,14,084.09	-	1,45,14,084.09	

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 20: वित्तीय लागत

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल
क) बैंक प्रभार	57,652.32		57,652.32	32,942.34		32,942.34
ख) अन्य (उल्लेख करें)			-			-
(i) हेफा अपफंट फीस/स्टांप ड्यूटी			-			-
(ii) हेफा बीमा			-	15,000.00		15,000.00
(iii) हेफा ब्याज	10,40,75,144.00		10,40,75,144.00	9,59,86,547.00		9,59,86,547.00
कुल	10,41,32,796.32	-	10,41,32,796.32	9,60,34,489.34	-	9,60,34,489.34

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 21 – अन्य व्यय

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
क) खराब तथा शंकालु ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान			-			-
ख) छोड़ा गया गैर वसूली योग्य बकाया			-			-
ग) अन्य संस्थाओं/संगठनों को अनुदान/इमदाद			-			-
घ) अन्य (उल्लेख करें): नया संकाय बीजक अनुदान	32,66,045.00		32,66,045.00	22,72,505.00		22,72,505.00
छात्रावास व्यय	2,65,55,517.06		2,65,55,517.06	69,70,374.43		69,70,374.43
कुदुम्बिनी महिला मंच	5,000.00		5,000.00	18,000.00		18,000.00
स्पिकमैके – व्यय	15,000.00		15,000.00			
2021–068–सीई–पीआरजी–आईआईटी–एसपी – इंस्टीट्यूट असिस्टेड	3,18,816.00		3,18,816.00			
समाप्त कर देना	13.32		13.32			
परिसंपत्तियों के निपटान पर नुकसान	14,648.00		14,648.00			-
कुल	3,01,75,039.38	-	3,01,75,039.38	92,60,879.43	-	92,60,879.43

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 22 – पूर्व अवधि व्यय

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष			राशि रूपये में
	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल	
1 स्थापना व्यय							
2 शैक्षिक व्यय							
3 प्रशासनिक व्यय							
4 परिवहन व्यय							
5 मरम्मत और अनुरक्षण							
6 अन्य व्यय							
विविध			-	2,622.00		2,622.00	
निधियों पर पूर्व अवधि व्याज	5,52,14,223.59		5,52,14,223.59				
कुल	5,52,14,223.59	-	5,52,14,223.59	2,622.00	-	2,622.00	

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची 23

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा तैयार करने का आधार

लेखा अन्यथा उल्लेख किए जाने तक ऐतिहासिक लागत परंपरा आधार पर और सामान्यतः लेखन की अर्जन पद्धति पर तैयार किए गए हैं।

2. राजस्व मान्यता

- 2.1 छात्रों से फीस (ट्यूशन फीस को छोड़कर), प्रवेश फार्म की बिक्री, रायल्टी और बचत खाता पर ब्याज को नगद आधार पर लिया गया है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए ली गयी ट्यूशन फीस को अर्जन आधार पर लिया जाता है।
- 2.2 निवेश पर ब्याज को अर्जन आधार पर लिया जाता है।

3. अचल परिसंपत्तियां और अवमूल्यन

- 3.1 अचल संपत्ति को आंतरिक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन, इंस्टालेशन और स्थापना से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष कर सहित अर्जन की लागत पर लिया गया।
- 3.2 अचल संपत्तियां लागत घटा संचयी अवमूल्यन पर ली गयी हैं। अचल संपत्ति पर अवमूल्यन निम्न दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है:

वास्तविक परिसंपत्तियां:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. भूमि | 0 प्रतिशत |
| 2. स्थल विकास | 0 प्रतिशत |
| 3. भवन | 2 प्रतिशत |
| 4. सड़क और पुल | 2 प्रतिशत |
| 5. ट्यूबवेल और जल आपूर्ति | 2 प्रतिशत |
| 6. सीवरेज और ड्रेनेज | 2 प्रतिशत |

7. विद्युत इंस्टालेशन और उपकरण	5 प्रतिशत
8. प्लांट एवं मशीनरी	5 प्रतिशत
9. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8 प्रतिशत
10. कार्यालय उपकरण	7.5 प्रतिशत
11. ऑडियो विज़ुअल उपकरण	7.5 प्रतिशत
12. कम्प्यूटर्स और सहायक उपकरण	20 प्रतिशत
13. फर्नीचर, फिक्सचर्स और फिटिंग्स	7.5 प्रतिशत
14. वहन	10 प्रतिशत
15. पुस्तकालय की पुस्तकें और वैज्ञानिक जर्नल	10 प्रतिशत

अवास्तविक परिसंपत्तियां:

1. ई-जर्नल	40 प्रतिशत
2. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40 प्रतिशत
3. पेटेंट और कापीराईट	9 वर्ष

- 3.3 वर्ष के दौरान जमा पर पूरे वर्ष के लिए अवमूल्यन प्रदान किया जाता है।
- 3.4 चिन्हिति निधि और निधि प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित संपत्ति जहां इन संपत्तियों का स्वामित्व संस्थान का है, उनकी स्थापना पूँजीगत निधि में क्रेडिट द्वारा की जाती है और इन्हें संस्थान की अचल संपत्तियों के साथ आमेलित कर दिया जाता है। संबंधित संपत्ति के लिए लागू दर पर अवमूल्यन लिया जाता है।
- 3.5 वे संपत्तियां जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत मूल्य 2000 रुपए अथवा उससे कम होता है (लाइब्रेरी पुस्तकों को छोड़कर) को लघु मूल्य संपत्ति के रूप में लिया जाता है। इन संपत्ति पर उनके अर्जन के समय 100 प्रतिशत अवमूल्यन प्रदान किया जाता है। तथापि, वास्तविक लेखन और नियंत्रण इन संपत्तियों के धारक द्वारा जारी रहता है।
- 3.6 केरल सरकार ने संस्थान की स्थापना के लिए पालक्काड के पुदुसेरी गांव में 454 एकड़ भूमि सौंपी है।
4. अवास्तविक संपत्तियां: ई-जर्नल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अवास्तविक संपत्तियों में समूहित किया जाता है।

- 4.1 इलेक्ट्रानिक जर्नल (ई-जर्नल) की प्रदत्त ऑनलाइन पहुंच से लिए जाने वाले सीमित लाभ को देखते हुए पुस्तकालय पुस्तकों से अलग किया जाता है। ई-जर्नल वस्तविक रूप में नहीं है परंतु अस्थायी रूप से पूँजीकृत किए गए हैं और व्यय की मात्रा तथा शैक्षिक एवं शोध स्टाफ द्वारा अर्जित ज्ञान के महत्व के रूप में ई-जर्नल के संबंध में अवमूल्यन लाइब्रेरी पुस्तकों के संबंध में प्रदत्त 10 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत की ऊंची दर पर दिया जाता है।
- 4.3 सॉफ्टवेयर के अर्जन पर व्यय को कंप्यूटर तथा सहायक उपकरणों से अलग किया गया है क्योंकि अवास्तविक संपत्ति के भाग के रूप में इनके संबंध में दर काफी अधिक है। सॉफ्टवेयर के संबंध में अवमूल्यन कम्प्यूटर और उपस्करों के संबंध में प्रदत्त 20 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत की ऊंची दर पर दिया जाता है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ

संस्थान नई पेंशन योजना का अनुपालन कर रहा है जिसे प्रोद्भूत आधार पर लिया जाता है। कर्मचारियों को संचयी अवकाश नगदीकरण लाभ के प्रावधान को इस अनुमान के आधार पर आकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में यह लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

6. कोरपस निधि

संस्थान की कोरपस निधि की स्थापना वित्तीय वर्ष 2019–20 में की गई थी। आंतरिक राजस्व का 50 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष कोरपस निधि में अंतरित किया जाएगा और यह निधि का मुख्य स्रोत बनेगा।

7. सरकारी अनुदान

- 7.1 सरकारी अनुदान को वसूली आधार पर लिया गया है। तथापि, जहां वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने के लिए स्वीकृति 31 मार्च से पहले प्राप्त हो जाती है और अनुदान वार्षिक में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है, तो अनुदान को अर्जन आधार पर लिया जाता है तथा समान राशि को गारंटीदाता से प्राप्ति योग्य के रूप में दर्शाया जाता है।
- 7.2 पूँजीगत व्यय के लिए प्रयोग की सीमा तक (अर्जन आधार पर), सरकारी अनुदान से अनुदान को पूँजीगत निधि में अंतरित किया गया है।

- 7.3 राजस्व व्यय के लिए सरकारी और यूजीसी अनुदान (अर्जन आधार पर) को प्रयोग की सीमा तक उस वर्ष की आय के रूप में लिया गया है जिसमें उन्हें वसूल किया गया है
- 7.4 अनुप्रयुक्त अनुदान (इन अनुदानों से प्रदत्त अग्रिम सहित) को आगे ले जाया जाता है और तुलन-पत्र में देनदारी के रूप में दर्शाया जाता है।
- 7.5 हेफा ऋण पर ब्याज को बजट शीर्ष जिसके तहत संस्थान को अनुदान दिया जाता है, के अनुसार राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 7.6 उपयोग न करने के कारण व्यपगत अनुदान को अनुदानकर्ता को वापस करने के रूप में लिया गया है।

8. प्रायोजित परियोजनाएं

- 8.1 जारी प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में, प्रायोजकों से प्राप्त राशि को “चालू देनदारी और प्रावधान-चालू देनदारी – अन्य देनदारी – जारी प्रायोजित परियोजना से प्राप्ति” शीर्ष में लिया जाता है। जब भी व्यय किया जाता है/इन परियोजनाओं के लिए अग्रिम कर भुगातन किया जाता है अथवा संबंधित परियोजना देनदारी लेखे को डेबिट किया जाता है।
- 8.2 संस्था स्वयं फैलोशिप और छात्रवृत्तियां प्रदान करती है जिन्हें शैक्षिक व्यय के रूप में लिया जाता है।
- 8.3 प्रायोजित संगठनों द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियां संस्थान की पुस्तकों में पूंजीकृत कर दी जाती है।

9. आयकर

संस्थान की आय आयकर की धारा 10 (23ग) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। लेखों में कर का कोई प्रावधान नहीं है।

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

अनुसूची-24

आकस्मिक देनदारी और लेखा टिप्पणी:

1. आकस्मिक देनदारी:

संस्थान के प्रबंधन ने ऐसी किसी घटना अथवा लेनदेन की पहचान नहीं की है जहां 31.03.2022 के अनुसार किसी भविष्य की अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप संस्थान के लिए देनदारी हुई हो।

2. पूंजीगत वचनबद्धता:

- 2.1 हेफा ने 1217.40 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है जिसमें से संस्थान ने 212.07 करोड़ रुपए का उपयोग किया है।
- 2.2 31.03.2022 को एचईएफए ऋण देनदारी शून्य है।

3. अचल संपत्ति:

- 3.1 अनुसूची-4 में अचल संपत्ति के लिए वर्ष में जोड़ में योजनागत निधि से खरीदी गई संपत्ति शामिल है। इन संपत्तियों की स्थापना पूंजीगत निधि में क्रेडिट द्वारा की गई है।
- 3.2 अनुसूची-4 में नर्धारित अचल संपत्ति में संस्थान द्वारा धारित और प्रयुक्त प्रायोजित परियोजनाओं से खरीदी गई संपत्ति शामिल नहीं है।
- 3.3 केरल सरकार ने संस्थान की स्थापना के लिए पालक्काड जिला के पुदुसेरी गांव में 454 एकड़ भूमि सौंपी है।

4. चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम और जमा

प्रबंधन के विचार से चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम और जमा का तुलन-पत्र में दर्शायी गयी समेकित राशि के समान सामान्य रूप से वसूली पर मूल्य है।

5. बचत बैंक खाते, चालू खाते और अचल जमा खाते में बकाए का विवरण चालू संपत्ति की अनुसूची के संलग्नक-के रूप में संलग्न है।
6. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो पुनः समूहित किया गया है।
7. अनुसूची 1 से 24 दिनांक 31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखें संलग्न हैं और उसका समेकित भाग है।
8. हेफा ऋण पर ब्याज उस शीर्ष के तहत बजट आबंटन के अनुसार राज्य मद के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसके तहत एमएचआरडी के अनुदान प्राप्त होता है।

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालककाउ
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष में लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

राशि रूपये में

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. आरंभिक शेष			I. व्यय		
क) नगद बकाया	4,713.00		क) स्थापना व्यय	28,28,08,667.00	23,19,86,714.00
ख) बैंक बकाया			ख) शैक्षिक व्यय	8,68,25,501.00	6,56,76,525.74
I. चालू खाते में	3,96,00,887.49	9,11,06,943.19	ग) प्रशासनिक व्यय	15,78,49,837.69	14,37,70,651.85
II. जमा खाते में	0.00	0.00	घ) परिवहन व्यय	57,46,334.00	64,79,441.00
III. बचत खाता	10,11,49,477.62	6,12,84,500.69	ड) मरम्मत और रख-रखाव	2,38,30,426.00	1,45,14,084.09
IV. इम्प्रेस्ट खाता	1,67,129.55	1,92,329.00	च) अन्य व्यय	16,52,53,205.58	8,67,96,703.33
II. प्राप्त अनुदान			II. चिह्नित/वृत्तिदान निधि से भुगतान	20,69,304.50	3,84,555.15
क) भारत सरकार से					
I. पूँजीगत व्यय के लिए अनुदान	2,26,43,00,000.00	83,43,00,000.00			
II. राजस्व व्यय के लिए अनुदान	2,09,58,48,810.00	80,60,53,935.00			
ग) अन्य स्रोत से					
III. शैक्षिक प्राप्तियां	12,75,86,446.42	8,94,20,890.38	III. प्रायोजित परियोजनाओं/स्कीमों से भुगतान	7,48,58,594.50	3,90,93,187.56
			इन्सपायर संकाय अनुदान प्रतिपूर्त व्यय	14,22,207.00	9,81,750.00
			कंसलटेंसी परियोजना के खिलाफ भुगतान		
IV. चिह्नित/वृत्तिदान निधियों से प्राप्तियां			IV. प्रयोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति से भुगतान	65,25,624.00	23,15,432.00
V. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं से प्राप्ति शोध परियोजना	9,33,71,665.19	4,97,76,777.00	महिला सशक्तिकरण हेतु दिशा कार्यक्रम		75,000.00
इन्सपायर संकाय अनुदान	7,00,000.00	29,00,000.00	V. किए गए निवेश और जमा		
			क) चिह्नित /वृत्तिदान निधियों में से		
			ख) स्वयं की निधियों में से (निवेश-अन्य)		
VI. रामानुजम फैलोशिप से प्राप्ति	7,76,676.00	7,60,000.00	VI. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा	8,26,38,290.00	65,52,97,185.55
VII. निम्न से निवेश पर आय			VII. अचल संपत्ति और पूँजीगत प्रगतिरत कार्य पर व्यय		
क) चिह्नित/वृत्तिदान निधि			क) अचल संपत्तियां	18,97,27,626.74	15,38,54,456.90
ख) अन्य निवेश			ख) पूँजीगत प्रगतिरत कार्य	2,07,02,37,476.91	1,52,23,54,391.41

VIII. निम्न पर प्राप्त व्याज क) बैंक जमा ख) ऋण और अग्रिम ग) बचत बैंक खाता	1,09,62,528.15 12,84,045.00	37,83,722.00 30,07,421.00	VIII. सांविधिक भुगतान सहित अन्य भुगतान क) ईएमडी को भुगतान ख) ऋण पुनर्भुगतान ग) शुल्क और कर घ) कर्मचारी लाभ भुगतान ड.) केरल राज्य सरकार को भुगतान की गई राशि	4,21,207.00 1,57,35,98,354.52	25,21,238.00 27,50,00,000.00 9,00,00,000.00
IX. नगदीकृत निवेश			IX. अनुदान वापसी	7,61,69,797.00	
X. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा नगदीकृत	24,97,76,115.00	52,25,91,906.55	X. जमा और अग्रिम	0.00	
XI. अन्य आय (पूर्व अवधि आय सहित) क) एल्युमनी निधि ख) आईआरडी दिल्ली-उन्नत भारत अभियान	66,12,664.98 5,61,919.85 3,45,798.00	41,47,349.00 5,88,738.00 0.00	XI. अन्य भुगतान क) छात्रावास व्यय ख) विविध भुगतान ग) आईआईटी दिल्ली घ) आईआईएम बैंगलोर		69,70,374.43 1,48,500.00 3,50,000.00 2,37,500.00
XII. जमा और अग्रिम क) ईएमडी प्राप्त ख) अग्रिम और जमा ग) वापसी योग्य जमा	15,07,680.00 0.00 0.00	8,03,983.50 45,00,000.00 0.00	XII. अंतिम शेष क) नगद बकाया ख) बैंक बकाया I. चालू खाते में II. जमा खाते में III. बचत खाता IV. इम्प्रेस्ट खाता	0.00 4,32,62,995.01	4,713.00 3,96,00,887.49 10,11,49,477.62 2,00,000.00 1,67,129.55
XIII. सांविधिक प्राप्ति सहित विविध प्राप्ति क. परामर्शी परियोजना ख. पिछले रोजगार से छुट्टी का नगदीकरण में योगदान	18,42,687.09 0.00	1,39,57,784.00 13,08,574.00			
XIV. कोई अन्य प्राप्ति क) विविध प्राप्ति – छात्रावास खाता ख) विविध प्राप्ति – संस्थान ग) ओवरहैड निधि घ) हेफा ऋण	6,16,137.20 65,28,593.00 41,03,703.00	2,66,190.40 53,46,309.00 94,33,95,045.96			
कुल	5,00,76,47,676.54	3,43,94,92,398.67	कुल	5,00,76,47,676.54	3,43,94,92,398.67

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालककाड नई पेंशन योजना			
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान			
प्राप्तियां	राशि	भुगतान	(राशि रूपये में) राशि
आरंभिक शेष में		निवेश	-
बैंक	36,15,341.00		
		एनएसडीएल को भुगतान	5,22,22,247.00
एनपीएस टायर खाता	4,86,06,906.00		
स्वयं का सब्स्क्रीपशन	-		
विश्वविद्यालय अनुदान	-		
निवेश पर प्राप्त ब्याज	-		
बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	अंतिम शेष	
		बैंक	-
नगदीकृत निवेशक	-		
	5,22,22,247.00		5,22,22,247.00

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

व्यय	राशि	आय	राशि
सब्सिडी लेखों पर अर्जित ब्याज		निवेश पर अर्जित ब्याज	-
		घटा: अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज	-
बैंक प्रभार	-		
व्यय की तुलना में अधिक आय	-		
	-		-

31.03.2022 को एनपीएस की बैलेंस शीट

व्यय	राशि	आय	राशि
एनपीएस टायर-I खाता		एनपीएस टायर-I खाता	
आरंभिक शेष	-	देय सब्स्क्रीप्शन और अंशदान	-
जमा: क्रेडिटिड ब्याज	-	निवेश	-
घटा: एनएसडीएल को अंतरित		अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज	-
व्यय की तुलना में अधिक आय	-	बैंक बकाया	-
एनएसडीएल को देय राशि	-		

ह/-
सहायककुलसचिव(वित एवं लेखा)

ह/-
कुलसचिव

ह/-
निर्देशक